



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2015—फाल्गुन 1, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2015

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इकोस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला सीहोर, गुना, खण्डवा, बैतूल, भिण्ड, रायसेन, धार एवं नीमच मध्यप्रदेश हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व निमाड़ खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्र. -स्था.नि.-सेक्टर जोनल-2014-3223.—त्रिस्तरीय आम चुनाव - 2014-15 के लिए जनपद पंचायत खण्डवा, छैगांवमाखन, पुनासा, पंधाना, बलड़ी, हरसूद, खालवा हेतु विहित अन्य सेवाओं के अधिकारियों को सेक्टर अधिकारी नियुक्त कर सेक्टर अधिकारियों को कार्य सौंपा गया है।

अतः निमानुसार नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 के तहत प्रदत्त करने का कष्ट करें :—

क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सुभाष सोलंकी	महिला एवं बाल विकास अधिकारी	कार्यालय, महिला एवं बाल विकास, खण्डवा
2	श्री मदन गजभिये	उपायुक्त, सहकारिता विभाग, खण्डवा	कार्यालय, सहकारिता विभाग, खण्डवा
3	श्री पी. के. मेहता	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, खण्डवा
4	श्री एस. एस. राजपूत	उप संचालक	कार्या. उप संचालक आत्मा कृषि विभाग, खण्डवा

(1)	(2)	(3)	(4)
5	श्री लाजरूस केरकटा	सहायक यंत्री	कार्या. कार्य. यंत्री, ग्रा. यां. सेवा खण्डवा, संभाग खण्डवा
6	श्री पी. एस. सोलंकी	जिला समन्वयन अधिकारी	जिला शिक्षा केन्द्र, खण्डवा
7	श्री जी. डी. लड्डा	जिला प्रबंधक	कार्या., जिला प्रबंधक, एम.पी. स्टेट एग्रो डेव्हो. कॉ. लिमिटेड, खण्डवा.
8	श्री राजेश गुप्ता	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्या. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, खण्डवा
9	श्री दिलीप सिंह	सहायक यंत्री	कार्या. लोक निर्माण विभाग संभाग खण्डवा
10	श्री एस. एस. मण्डलोई	श्रम पदाधिकारी	कार्यालय श्रम पदाधिकारी, खण्डवा
11	श्री राजेश गुप्ता	भूमि संरक्षण अधिकारी	कार्या. संभागीय भूमि संरक्षण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण खण्डवा, संभाग खण्डवा.
12	श्री एस. एस. पटेल	सहायक वाणिज्यिकर अधिकारी	कार्या. वाणिज्यिकर, खण्डवा
13	श्री सहदेव नागले	सहायक संचालक	कार्यालय, मत्स्य उद्योग विभाग, खण्डवा
14	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	उप परियोजना संचालक	कार्या. उप संचालक परियोजना आत्मा कृषि, खण्डवा
15	श्री अनुप कुमार जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा
16	श्री उल्लास पाटनकर	सहायक संचालक	महाप्रबंधक आर एण्ड आर एन.एच.डी.सी., खण्डवा
17	श्री हरजिन्द्र सिंह अरोगा	परियोजना अधिकारी	कार्या. एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्डवा.
18	श्री एस. के. भालेराव	जिला शिक्षा अधिकारी	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, खण्डवा
19	श्री एस. एल. नागर	उप संचालक	कार्या. उप संचालक उद्यानिकी विभाग, खण्डवा
20	श्री निर्मल परिहार	वाणिज्यक कर अधिकारी	कार्या. वाणिज्यक कर अधिकारी, खण्डवा
21	श्री आर. एस. गरगास्त	प्रबंधक	महाप्रबंधक एन.एच.डी.सी. आर एण्ड आर, खण्डवा
22	श्री सचिन जैन	उप परिसंचालक	कार्या. उप परिसंचालक, खण्डवा
23	श्री उमा प्रसाद	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	बीज प्रमाणीकरण संभागीय कार्यालय, खण्डवा
24	श्री ए. के. गर्ग	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्डवा
25	श्री पी. के. शर्मा	अनुविभाग अधिकारी	कार्या. जल मौसम विज्ञान केन्द्र-6, खण्डवा
26	श्री के. के. गोखले	सहायक वन संरक्षक	कार्या. वनमण्डल सामान्य, खण्डवा
27	श्री जी. एल. बड़ोले	सहायक आयुक्त	सहकारिता विभाग, खण्डवा
28	डॉ. नीरज कुमुद	प्रबंधक	कार्या. उपसंचालक पशुपालन विभाग, खण्डवा
29	श्री डी. के. वाणी	कार्यक्रम समन्वयक	कार्या. बी. एम. कृषि महाविद्यालय, खण्डवा
30	श्री एन. के. धनोत्तिया	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास शहरी, खण्डवा
31	श्री जयपाल सिंह पटेल	सहायक संचालक	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी किसान कल्याण विभाग, हरसूद.
32	श्री एल. एस. बघेल	उप संचालक	कार्या. उपसंचालक पशुपालन विभाग, खण्डवा
33	श्री सुधीर कवमने	प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खण्डवा
34	श्री एम. एस. चौहान	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.घा.वि.वि. संभाग क्र. 28, पुनासा
35	श्री संजय कुमार सिंह	उप प्रबंधक (वित्त)	महाप्रबंधक एन.एच.डी.सी. आर एण्ड आर, खण्डवा
36	श्री मोहनलाल अहिरवार	परियोजना अधिकारी	कार्या. एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी, छैंगांवमाखन.
37	श्री दिनबंधु पाठक	उप प्रबंधक	एन.एच.डी.सी., खण्डवा
38	श्री आर. के. कोष्ठी	कार्यपालन यंत्री	कार्या. का.यं. नर्मदा घाटी विकास संभाग-13, खण्डवा
39	श्री शरद कुमार राय	सहायक यंत्री	कार्या. का.यं. जल संसाधन संभाग, खण्डवा
40	श्री एन. के. श्रीवास्तव	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	कार्या. सहायक भूमि संरक्षण, खण्डवा
41	श्री टीकाराम सनोडिया	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	कार्या. नर्मदा घाटी विकास संभाग, खण्डवा
42	श्री ध्यान सिंह डुडवे	सहायक वन संरक्षक	कार्या. वनमण्डल सामान्य खण्डवा
43	श्री आर. एस. नरवरिया	सहायक संचालक	कार्या. आदिम जाति कल्याण विभाग, खण्डवा

(1)	(2)	(3)	(4)
44	श्री बी. एस. बारस्कर	कार्यपालन यंत्री	कार्या. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्डवा
45	डॉ. आर. आई. सिसोदिया	सहायक प्राध्यापक	बी.एम. कृषि महाविद्यालय, खण्डवा
46	श्री आशीष सोनी	लेखाधिकारी	जनपद पंचायत, किल्लौद
47	श्री सौरभ कुमार	उप प्रबंधक	एन.एच.डी.सी., खण्डवा
48	श्री नारायण अग्रवाल	जिला प्रबंधक	एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाय का. लिमिटेड, खण्डवा
49	श्री लव प्रदीप गौर	सहायक यंत्री	एन.व्ही.डी.ए., संभाग-25, खण्डवा
50	श्री दिलीप मुदगल	सहायक यंत्री	कार्या. यंत्री एवं संभाग विद्युत निरीक्षक, खण्डवा
51	श्री एस. एस. ठाकुर	अनुविभागीय अधिकारी	वन सामान्य, पुनासा
52	श्री पी. एन. चौधरी	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-28, पुनासा
53	श्री प्रणय व्यास	प्रभारी अधिकारी	कार्या. मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाण संस्था, खण्डवा
54	श्री हरिओम गुप्ता	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-25, पुनासा
55	श्री इन्द्र प्रताप सिंह चौहान	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-25, पुनासा
56	श्री एल. एन. नाथ	अनुविभागीय अधिकारी	वन सामान्य उत्पादन, खण्डवा
57	श्री ज्योति प्रकाश आनन्द	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-25, पुनासा
58	श्री के. एस. पाण्डे	प्रबंधक (सिविल)	महाप्रबंधक, एन.एच.डी.सी. आर. एण्ड आर नर्मदा नगर, खण्डवा.
59	श्री अजित पाटनी	वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल)	इन्दिरा सागर पॉवर स्टेशन एन.एच.डी.सी., खण्डवा
60	श्री अनिल कुमार	उप प्रबंधक (सिविल)	महाप्रबंधक, एन.एच.डी.सी. आर. एण्ड आर नर्मदा नगर, खण्डवा.
61	श्री कैलाश भत्करे	अनुविभागीय अधिकारी	उत्पादन वन मण्डल, खण्डवा
62	श्री मनोज कुमार अग्रवाल	उप प्रबंधक (सिविल)	इन्दिरा सागर पॉवर स्टेशन एन.एच.डी.सी., नर्मदानगर
63	श्री विनय कुमार मिश्रा	उप प्रबंधक (ई.)	इन्दिरा सागर पॉवर स्टेशन एन.एच.डी.सी., नर्मदानगर
64	श्री विमल कुमार शुक्ला	सहायक यंत्री	कार्या. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, खण्डवा
65	श्री आर. के. सिंह	सहायक वन संरक्षक	कार्या. वन विभाग, खण्डवा
66	श्री ए. एस. राजपूत	निरीक्षण अधिकारी	जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास मर्यादित, खण्डवा.
67	श्री एम. एस. तोमर	जिला प्रबंधक	कार्या. मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाय कॉर्पोरेशन, खण्डवा.
68	श्री कड़वा चौहान	पशु चिकित्सक	कार्या. पशु पालन विभाग, खण्डवा
69	श्री एन. एल. अहिरवार	सहायक वन संरक्षक	कार्या. अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, खण्डवा
70	श्री शारद जयकर	प्रबंधक	महाप्रबंधक एन.एच.डी.सी., खण्डवा
71	श्री उमेश कुमार बंसल	सहायक प्रबंधक	मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना, खण्डवा
72	श्री पी. के. भण्डारी	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा घाटी विकास विभाग संभाग क्र-13, खण्डवा
73	श्री संजीव झा	वनमण्डलाधिकारी	वन विभाग, खण्डवा
74	श्री भूरेसिंह निगवाल	सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी	कार्या. मिट्टी परिक्षण, खण्डवा.

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. -त्रि-स्त.पं.निर्वा.-मदग-2014-15-2595.—त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन - 2014-15 हेतु नियुक्त किये जाने वाले सेक्टर अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां निर्वाचन कार्य हेतु प्रदत्त किया जाना है, जिन अधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त किया जाना है, उनकी सूची संलग्न है।

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की सूची

क्र.	नाम अधिकारी	पद	विभाग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की जाना है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नाथूराम गोयल	प्राचार्य	शा.क.उ.मा.वि., मौ	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
2	सतीशचंद्र श्रीवास्तव	प्राचार्य	शा.क.उ.मा.वि., गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
3	के. के. सोनी	व्याख्याता	शा.क.उ.मा.वि., गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
4	एस. डी. भौर्य	प्राचार्य	शा.क.उ.मा.वि., लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
5	ए. के. उपाध्याय	सहा. प्राध्यापक	शा. महर्षि अरविंद महाविद्यालय, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
6	विक्रम शर्मा	क्रीड़ा अधिकारी	शा. महर्षि अरविंद महाविद्यालय, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
7	राकेश डबरिया	सहा. प्राध्यापक	शा. महाविद्यालय, मेहगांव	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
8	डॉ. ओ. पी. चक्र	सहा. प्राध्यापक	शा. महाविद्यालय, आलमपुर	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
9	डी. के. माहौर	सहा. प्राध्यापक	शा. महाविद्यालय, आलमपुर	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
10	प्रो. आर. एस. परिहार	सहा. प्राध्यापक	शा. महा. वि. अटेर	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
11	प्रो. सी. पी. विमल	सहा. प्राध्यापक	शा. महा. वि. अटेर	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
12	महिपाल सिंह यादव	व्याख्याता	शा.म.ल.बा.कन्या उ.मा.वि., भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
13	उमाशंकर तिवारी	व्याख्याता	शा.म.ल.बा.कन्या उ.मा.वि., भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
14	सुरेन्द्र सिंह नरवरिया	व्याख्याता	शा.म.ल.बा.कन्या उ.मा.वि., भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
15	आशाराम शाक्य	प्राचार्य	शा.म.ल.बा.कन्या उ.मा.वि., भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
16	हरनारायण शाक्य	प्राचार्य	शा. हाईस्कूल, क्यारीपुरा	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
17	डी. पी. शर्मा	प्राचार्य	शा. हाईस्कूल, पुर	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
18	एस. एन. तिवारी	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि., खनेता	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
19	अनिल वर्मा	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि., टुण्डीला	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
20	सुरेश कुमार गौतम	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि., कोट	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
21	रामदास यादव	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि., पुलावली	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
22	रामदीन गोयल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि., बिरौली	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
23	यू. के. करैया	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि., कनावर	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
24	रविन्द्र सिंह	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि., लहरौली	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
25	आर. पी. नागर	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि., क्र.-2	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
26	जागेश्वर राम निराला	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि., दबोह	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
27	नरेन्द्र सिंह भदौरिया	प्राचार्य	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि., अटेर	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
28	प्रो. लारेन्स कुमार बौद्ध	सहा. प्राध्यापक	शा. गांधी महाविद्यालय बालाजी मिहोना	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
29	मलखान सिंह कुशवाह	प्राध्यापक	शा. गांधी महाविद्यालय बालाजी मिहोना	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
30	डॉ. बाबूलाल अहिंस्वार	प्राचार्य	शा. गांधी महाविद्यालय बालाजी मिहोना	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
31	विनोद कुमार सिंह	क्रीड़ा अधिकारी	शा. गांधी महाविद्यालय बालाजी मिहोना	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
32	अरविंद शर्मा	पीटीआई	शा.क. महाविद्यालय, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
33	ए. एन. शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
34	एस. एस. शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
35	पी. एन. शिवहरे	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
36	डी. एस. कुशवाह	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37	के. के. शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
38	लक्ष्मण सोलंकी	सहा. यंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
39	सुनील सेठी	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
40	एम. के. शुक्ला	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
41	व्ही. एल. जाटव	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
42	व्ही. एस. जैन	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
43	एम. सी. शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
44	डी. के. गुप्ता	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर निर्माण क्र.-10 लहार	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
45	पी. के. श्रीवास्तव	प्रभारी सहा. यंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
46	पी. के. द्विवेदी	प्रभारी सहा. यंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
47	पी. के. मिश्रा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
48	सी. एम. जोशी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
49	पी. एस. तोमर	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
50	एस. के. जैन	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
51	हरिओम गुप्ता	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
52	अशोक कुमार श्रीवास्तव	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
53	आर. के. श्रीवास्तव	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
54	एस. एन. गंगवाल	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
55	एस. के. शुक्ला	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
56	भीमशंकर शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
57	आर. के. द्विवेदी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
58	रामेन्द्र सिंह तोमर	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
59	रविन्द्र सिंह भदौरिया	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
60	के. एस. कुशवाह	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
61	जी. एस. भदौरिया	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
62	आर. के शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
63	आर. बी. एस. भदौरिया	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
64	अशोक कुमार शर्मा	प्रभारी सहा. यंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
65	देवनारायण मिश्रा	डी.पी.सी.	जिला शिक्षा केन्द्र, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
66	आर. के. यादव	ए.पी.ओ.	जिला पंचायत, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
67	अशोक सिंह घुरैया	ए.पी.ओ.	जिला पंचायत, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
68	होतम सिंह यादव	अंकेक्षण अधिकारी	सहा. पंजीयक (ऑफिट) सह. संस्थाएं, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
69	सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव	वरिष्ठ व्याख्यता	डाइट, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
70	रोहित ग्रेवाल	वाणिज्यकर अधिकारी	वाणिज्य अधिकारी	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
71	सुनील कुमार सबरवाल	सहायक यंत्री	जल संसाधन, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
72	प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	उपयंत्री	जल संसाधन, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
73	सुरेशचंद्र गुप्ता	सहायक यंत्री	जल संसाधन, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
74	राजाराम गोयल	उपयंत्री	जल संसाधन, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
75	रामनरेश शर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
76	विनोद सिंह भदौरिया	उपयंत्री	जल संसाधन, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
77	कौशल किशोर दीक्षित	उपयंत्री	जल संसाधन, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78	विश्वनाथ मिश्रा	उपयंत्री	जल संसाधन, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
79	के. सी. धनोतिया	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
80	देवेन्द्र सिंह चौहान	उपयंत्री	जल संसाधन, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
81	ए. के. गुप्ता	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
82	बी. एस. सागर	सहायक यंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
83	पंकज कुमार सेंगर	सहायक यंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
84	अनिल दीक्षित	सहायक यंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
85	सी. पी. सुखवानी	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
86	अरूण कुमार दीक्षित	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
87	ए. के. गुप्ता	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
88	आर. पी. गुप्ता	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
89	विष्णु कुमार वार्ष्णेय	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
90	आर. के. बंसल	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
91	ओ. पी. यादव	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
92	आर. के. शर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
93	ओ. पी. सिंघल	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
94	बी. पी. गुप्ता	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
95	नाथुराम बिंदल	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
96	नरेन्द्र सिंह भदौरिया	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
97	बी. के. वर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
98	मुनेन्द्र सिंह कुशवाह	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
99	दिलीप कुमार पाण्डेय	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
100	जे. एस. गुर्जवार	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
101	ए. एस. किरार	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
102	रामअवतार सिंह	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
103	सुबोध सिंह भदौरिया	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
104	रामौतार सिंह कतरौलिया	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
105	जसराम सिंह गुर्जवार	उपयंत्री	जल संसाधन, गोहद	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
106	अब्दुल सत्तार खां	वरि.कृ.वि.अधि.	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, मेहगांव	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
107	एस. एस. तोमर	एस.ए.डी.ओ.	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
108	के. के. शर्मा	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
109	एस. के. बेदक	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
110	ओ. पी. गौर	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
111	पी. के. शर्मा	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
112	एम. एस. कुशवाह	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
113	एस. बी. एस. परिहार	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
114	पी. के. जैन	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
115	आर. डी. कोटिया	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
116	टी. आर. शाक्य	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भिण्ड	सम्पूर्ण जिला भिण्ड

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 10 जनवरी 2015

क्र. -पंचा.निर्वा.-14-15-यातायात-231.—

पंचायत निर्वाचन 2015 हेतु नियुक्त सेक्टर आफिसर्स को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की
शक्तियां प्रत्यायोजित करने हेतु प्रस्ताव

क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित हैं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री जे. एम. लालवानी	सहायक यंत्री, लोक स्वा. यांत्रिकी, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-1.
2	श्री ओ. पी. लक्षकार	जिला प्रबंधक, म. प्र. सिविल सप्लाई कारपोरेशन, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-2.
3	श्री मोहित भारती	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, बैतूल.	तृतीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-3.
4	श्री रमेश जिवतोडे	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बैतूल.	तृतीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-4.
5	श्री एस. एस. मरकाम	अनु. अधि., ग्रा. यां. सेवा, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-5.
6	श्री के. एस. पट्टा	उप बनमण्डलाधिकारी, उत्पादन बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-6.
7	श्री कमलाकर देशमुख	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-7.
8	श्री देवेन्द्र पट्टले	खनि निरीक्षक, बैतूल	तृतीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-8.
9	श्री एम. के. चौधरी	सहायक प्रबंधक, म. प्र. ग्रा. सङ्क विकास, प्रा. इकाई-1, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-9.
10	श्री आर. एम. कुरैशी	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-10.
11	श्री एस. आर. सेंदाणे	श्रम पदाधिकारी, बैतूल	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-11.
12	श्री सी. बी. गुप्ता	सहायक वन संरक्षक, वन अनुसंधान एवं विस्तार, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-12.
13	श्री बी. आर. तांडिया	प्राचार्य, आई. टी. आई., बैतूल	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-13.
14	श्री के. पी. फोले	उप परियोजना अधिकारी, (आत्मा), बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-14
15	श्री अदित्य कुमार नागर	जिला पेंशन अधिकारी, बैतूल	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-15.
16	श्री अभिजीत पचौरी	जिला महिला सशक्ति. अधिकारी, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-16.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	श्री आर. के. द्विवेदी	उप परियोजना अधिकारी, परियोजना संचालक (आत्मा), बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-17.
18	श्री जे. एस. भदौरिया	सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल.	तृतीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-18.
19	डॉ. जी. डी. गुलबाके	उपसंचालक, पशु चिकित्सा, बैतूल	प्रथम श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-19.
20	श्री शिशिर कुशवाह	महाप्रबंधक, म. प्र. ग्राम सङ्गठन विकास परियोजना इकाई-1, बैतूल.	प्रथम श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-20.
21	श्री किशोर मोरते	उपायुक्त सहकारिता, बैतूल	प्रथम श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-21.
22	श्री एस. एस. चौहान	परियोजना संचालक, (आत्मा), बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-22.
23	श्री एम. डी. डहरवाल	प्राचार्य, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-23.
24	श्री सुरेन्द्र कुमार पराते	सहायक संचालक, उप संचालक कृषि, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का सेक्टर क्रमांक-24.
25	श्री विजय नथानियल	प्रबंधक, खादी एवं ग्रामोद्योग, जिला पंचायत, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का रिजर्व सेक्टर.
26	श्री गोविन्द मीणा	सहायक संचालक, उप संचालक, कृषि, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल का रिजर्व सेक्टर.

जनपद पंचायत, आमला

27	श्री आर. एस. गौतम	सहायक प्रबंधक, म. प्र. ग्राम सङ्गठन विकास परियोजना इकाई-2, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 1.
28	श्री जे. एस. सिकरवार	महाप्रबंधक, म. प्र. ग्राम सङ्गठन विकास परियोजना इकाई-2, बैतूल.	प्रथम श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 2.
29	श्री एस. पी. सैनी	सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 3.
30	श्री अशोक मालवीय	जिला पंजीयक, जिला पंजीयक, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 4.
31	श्री शिवराज नागले	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, प्रभातपट्टन.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 5.
32	श्री भूपेन्द्र दीक्षित	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, आमला.	तृतीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 6.
33	श्री राकेश त्रिवेदी	एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी, आठनेर.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 7.
34	श्री जे. एस. बारस्कर	परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. कारगिल चौक, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 8.
35	श्री जगदीश उर्के	सहा. प्राध्यापक, भीमराव अम्बेडकर महा. वि., आमला.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 9.
36	श्री अनुराग सिंह	परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. कारगिल चौक, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 10.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37	श्री एन. आर. राठौर	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मुलताई.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 11.
38	श्री सतीश शर्मा	संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 12.
39	श्री एस. एस. रैकवार	अनु. अधि., जल संसास. संभाग, मुलताई	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का सेक्टर क्रमांक 13.
40	श्री गुलाबराव डोंगरे	सहायक प्राध्यापक डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय, आमला.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, आमला का रिजर्व सेक्टर.
जनपद पंचायत, शाहपुर				
41	श्री के. एस. रंधावा	उप वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल, भौंरा.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का सेक्टर क्रमांक 1.
42	श्री सुभाष चन्द्र प्रधान	वनक्षेत्रपाल, वनमण्डलाधिकारी (पश्चिम), बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का सेक्टर क्रमांक 2.
43	श्री सी. एल. पंडित	सहायक प्रबंधक, म.प्र. ग्राम सङ्क विकास परियोजना, ईकाई-1, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का सेक्टर क्रमांक 3.
44	श्री के. के. सोनी	सहायक प्रबंधक, म.प्र. ग्राम सङ्क विकास परियोजना, ईकाई-1, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का सेक्टर क्रमांक 4.
45	श्री आर. के. चौरे	अपर वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डलाधिकारी, शाहपुर, उत्तर सामान्य, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का सेक्टर क्रमांक 5.
46	श्री फागलाल नागलकर	वन परिक्षेत्र अधिकारी, वनमण्डलाधिकारी, शाहपुर, उत्तर सामान्य, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का सेक्टर क्रमांक 6.
47	श्री अजय जायसवाल	जिला रोजगार अधिकारी, रोजगार कार्यालय, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का सेक्टर क्रमांक 7.
48	श्री व्ही. पी. गौर	सहायक संचालक, एकीकृत बाल विकास परियोजना, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का सेक्टर क्रमांक 8.
49	श्री जी. एस. सावनेर	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का सेक्टर क्रमांक 9.
50	श्री एस. के. जाटव	सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शाहपुर.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का सेक्टर क्रमांक 10.
51	श्री अरविन्द नरे	सहायक यंत्री, जल संसाधन संभाग-2, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का सेक्टर क्रमांक 11.
52	डॉ. एम. गिरी	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, शाहपुर.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का रिजर्व सेक्टर.
53	श्री डॉ. एम. डी. वाघमरे	प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, शाहपुर.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का रिजर्व सेक्टर.
54	श्री एस. के. पटवा	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत, शाहपुर का रिजर्व सेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)

जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 23 दिसंबर 2014

क्र. 940-स्था. निर्वा.-2014.—प्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 हेतु जिले में सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां जनपदवार की जा चुकी हैं। नियुक्ति किये गये सेक्टर अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की शिक्षितयां प्रदाय की जाना है:—

प्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 में नियुक्त सेक्टर अधिकारियों की जनपद पंचायतवार जानकारी

संख्या.	संक्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम	पद	कार्यालय/ विभाग का नाम	संपर्क नं.		संबंधित जनपद पंचायत का नाम	सेक्टर क्रमांक (8)
					(1)	(2)		
1	1	डॉ. आर. आर. आहिरवार	पशु चिकित्सा अधिकारी	म.स. कार्यालय पशु चिकित्सालय कार्यालय अधिकारी	9893544372	बदनावर	1 करोदा	
2	2	श्री बी. एल. चौबे	अनुविभागीय अधिकारी	लो.नि.वि., बदनावर	9425449971	बदनावर	2 रुपाखेडा	
3	3	श्री बी. एम. सोलंकी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कृषि विभाग बदनावर	9893718045	बदनावर	3 दोत्रिया	
4	4	श्री निरज सांवलीय	उद्यान अधीक्षक	संजय निकुञ्ज, बदनावर	9826063626	बदनावर	4 भुवनीखेडा	
5	5	डॉ. बी. के. साहु	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	पशु चिकित्सालय, बदनावर	9685945304	बदनावर	5 खेडा	
6	6	श्री एस. एस. बारोया	प्रबंधक	म.प्र. बीज निगम, बदनावर	9893727033	बदनावर	6 सांगवी	
7	7	श्री नारायण प्रसाद राठोर	कर्निंग सहा. शाखा प्रबंधक	म.प्र. वेयरहाउसोंग, बदनावर	9424077613	बदनावर	7 घटगारा	
8	8	श्री डी. एस. गेहलोद	उपर्यंत्री	जल संसाधन विभाग, बदनावर	968507925	बदनावर	8 रतनपुरा	
9	9	डॉ. जुवानीमंह भूरीया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	जल संसाधन विभाग, कानवन	7746930084	बदनावर	9 गाजनोद	
10	10	श्री बी. एस. आवासिया	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग, बदनावर	9425481475	बदनावर	10 कानवन	
11	11	श्री अशोक श्रीवास्तव	उपर्यंत्री	ग्रा.सं., बदनावर	8085037397	बदनावर	11 बिडवाल	
12	12	श्री विजय बेरगी	उपर्यंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र, बदनावर	9755212596	बदनावर	12 दत्तीगारा	
13	13	श्री ओ. पी. राठोर	उपर्यंत्री	लो.नि.वि., बदनावर	9424051682	बदनावर	13 नागोरा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	14	श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी	उपर्यंत्री	कृषि उपज मण्डी समिति, बदनावर	9425035333	बदनावर	14 नागदा
15	15	श्री राजेन्द्र लस्करी	विकासखण्ड स्वेत समन्वयक	जनपद शिक्षा केन्द्र, बदनावर	9179711824	बदनावर	15 कडोदकला
16	16	श्री ओ. पी. तिवारी	उपर्यंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र, बदनावर	9893491107	बदनावर	16 चिराखान
17	17	श्री शेलन्द्रसिंह बाखल	उपर्यंत्री	लो.स्का.या. विभाग, बदनावर	8109781321	बदनावर	17 तरोद
18	1	श्री प्रकाश पाटिल	कनिष्ठ खाद्य, आपूर्ति अधिकारी	खाद्य आपूर्ति, कुक्षी	9424568005	बाग	1 टांडा
19	2	श्री आर. के. मोदवे	उपर्यंत्री	जल संसाधन, बाग	9893541223	बाग	2 नरवाली
20	3	श्री जगदीशचन्द्र वर्मा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कृषि विभाग, बाग	961765507	बाग	3 अम्बासोटी
21	4	श्री राजेश जमरा	विकासखण्ड स्वेत समन्वयक	जनपद शिक्षा केन्द्र, बाग	9907031643	बाग	4 बांकी-टाणडा
22	5	श्री हरेसिंह रघवंशी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत, बाग	9977433711	बाग	5 चिजबा
23	6	श्री बी. एल. पाठक	वन परिक्षेत्राधिकारी	वन विभाग बाग	9424792267	बाग	6 आगर
24	7	श्री एम. बी. गंगोर	मत्स्य निरीक्षक	मत्स्य पालन विभाग, कुक्षी	9424000068	बाग	7 काकडवा
25	8	श्री ए. एस. बहेडिया	अनुविभागीय कृषि अधिकारी	कृषि विभाग, कुक्षी	7898789857	बाग	8 बांकी-बाग
26	9	श्री ओ. पी. दंगोडे	प्रबंधक	आई.टी.आई., कुक्षी	9301209422	बाग	9 जेतागढ
27	10	श्री ए. के. शाह	सहायक यंत्री	पी. एच. ई., कुक्षी	942408780	बाग	10 कुद्दोता
28	11	श्री ए. के. महाजन	उपर्यंत्री	जल संसाधन, बाग	9589639444	बाग	11 भोरी
29	12	श्री इयमर्वी शर्मा	उपर्योजना अधिकारी	जनपद शिक्षा केन्द्र, बाग	9993944031	बाग	12 मेरती
30	13	श्रीमती उषा यादव	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास विभाग, बाग	9425943092	बाग	13 बाग
31	14	श्री चंचल जैन	उप पंजीयक	पंजीयक कार्यालय, कुक्षी	9009022221	बाग	14 महाकालपुरा
32	15	श्री दशरथ बघेल	उपर्यंत्री	ग्रा.या. सेवा, कुक्षी	9993807475	बाग	15 झिरपत्ता
33	16	श्री ज्ञानसिंह बघेल	उपर्यंत्री	जल संसाधन, बाग	9098987102	बाग	16 जामन्यापुरा
34	17	श्री एल. एल. पंचवा	उपर्यंत्री	प्रधानमंत्री सड़क परि., कुक्षी	909902270	बाग	17 अखाडा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35	1	श्री एस. पी. शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रा.यां.से., उपसंभाग, कुक्षी	9826200992	डही	1 टेमरिया
36	2	श्री एम. आर. कोरे	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग, कुक्षी	9893248738	डही	2 अराड़ा
37	3	श्री राजेशसिंह बघेल	पशु चिकित्सा विभार अधिकारी	विकासखण्ड, डही	9425742029	डही	3 चाकल्या
38	4	श्री जी. एस. सावत	अनुविभागीय अधिकारी	तोक स्कार्स्य यांत्रिकी, निसरपुर	9752015623	डही	4 भगांवा
39	5	श्री यशवंतकुमार भावसर	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत, डही	9926045356	डही	5 गाजगोटा
40	6	श्री के. पी. साकले	अनुविभागीय अधिकारी	मान जोबट परियोजना, कुक्षी	9893066730	डही	6 रणगांव
41	7	श्री एस. एम. मकवानी	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास, डही	8225986571	डही	7 बड़वान्या
42	8	श्री एस. आर. जायसवाल	सहायक यंत्री	एन.क्षी.डी.ए. 16, कुक्षी		डही	8 पड़ियाल
43	9	श्री कलाश मार	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी	भूमि संरक्षण विभाग, कुक्षी सुसारी	9826554996	डही	9 अमलाल
44	10	श्री एस. बी. बर्मा	सहायक प्रबंधक	प्रश्ना.ग्रा.स.योज., पी.आय.यू. कुक्षी	9425920679	डही	10 बड़दा
45	11	श्री राजेन्द्र गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी	नर्मदा घाटी विकास विभाग, कुक्षी	9993445832	डही	11 पलासी
46	12	श्री अशोक शुक्ला	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	विकासखण्ड, निसरपुर	9993741580	डही	12 गांगपुर
47	13	श्री इरफान अहमद खान	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा घाटी विकास विभाग, कुक्षी	9893422949	डही	13 धरमराय
48	14	श्री विजेन्द्रसिंह डोडवे	सहायक यंत्री	एन.क्षी.डी.ए. 16, कुक्षी	8349388616	डही	14 सिंडी
49	15	श्री आलोक चौबे	सहायक यंत्री	एन.क्षी.डी.ए. 16, कुक्षी	9773015442	डही	15 पिपलुद
50	16	श्री प्रतापसिंह चौंगड	विरिषि कृषि विकास अधिकारी	विकासखण्ड, डही		डही	16 अतरसुमा
51	1	श्री जे. के. सावला	कार्यपालन यंत्री	ओंकारेश्वर नार परियोजना, धामनोद		धरमपुरी	1
52	2	श्री ए. के. गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी	ओंकारेश्वर नार परियोजना, धामनोद		धरमपुरी	2
53	3	श्री आर. एस. नागर	वन परिषिकाधिकारी	वन परिषेत्र, धामनोद		धरमपुरी	3
54	4	श्री विजय वासकेल	अनुविभागीय अधिकारी	ओंकारेश्वर नार परियोजना, धामनोद		धरमपुरी	4
55	5	श्री आर. एस. भागोर	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन, धामनोद		धरमपुरी	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
56	6	श्री ए. के. वर्मा	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सालय, धामनोद	धरमपुरी	6	
57	7	श्री सी. एस. मलतेरे	अनुबिभागीय अधिकारी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, धरमपुरी	धरमपुरी	7	
58	8	श्री एस. के. जैन	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा घाटी विकास परि., धरमपुरी	धरमपुरी	8	
59	9	श्री लालराम सिंहौदिया	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सालय, धरमपुरी	धरमपुरी	9	
60	10	श्री ए. के. चौधरी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कृषि विभाग, धरमपुरी	धरमपुरी	10	
61	11	श्री बी. एस. चौहान	उद्यान अधीक्षक	नर्सरी, धरमपुरी	धरमपुरी	11	
62	12	श्री आर. के. मण्डलोई	अनुबिभागीय अधिकारी	नर्मदाघाटी विकास परि., धरमपुरी	धरमपुरी	12	
63	1	श्री ए. के. अहिरवार	उपयंत्री	जल संसाधन क्रमांक 2, गंधवानी	गंधवानी	1	चुनया
64	2	श्री दयानन्द पाटीदार	सहायक यंत्री	मनेरा जनपद पंचायत, गंधवानी	गंधवानी	2	पांचपिपला
65	3	श्री बी. आर. डोडवे	मुख्य कार्यपालन यंत्री	अंतर्व्यवसायी निगम, धार	गंधवानी	3	जलोख्या
66	4	श्री एन. एस. खटोडिया	खनिज अधिकारी	खनिज विभाग, धार	गंधवानी	4	देवली के
67	5	श्री गोरुसिंह डाबर	उपयंत्री	मनेरा गंधवानी	गंधवानी	5	लेडांगव
68	6	श्री एन. आर. मण्डलोई	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	शा. संजय निर्कुञ्ज पानवा (गंधवानी)	गंधवानी	6	जामली
69	7	श्री ए. के. जैन	उपयंत्री	जल संसाधन क्रमांक 02, गंधवानी	गंधवानी	7	पुरा
70	8	श्री मिथुन सिंहौदिया	उपयंत्री	मनेरा गंधवानी	गंधवानी	8	कोटा
71	9	श्री कमलेश कुमार सावला	उपयंत्री	जल संसाधन क्रमांक 02, गंधवानी	गंधवानी	9	बलवारीखुद
72	10	श्री एस. के. गोयत	अनुबिभागीय अधिकारी	जल संसाधन क्रमांक 02, गंधवानी	गंधवानी	10	घरसल
73	11	श्री आर. एस. परिहार	सहायक संचालक	पिछड़ा वर्ग, धार	गंधवानी	11	चिकली
74	12	श्री दिलीप देशपांडे	सहायक यंत्री	एन. बी. डी. ए., कुक्की	गंधवानी	12	गंधवानी
75	13	श्री आनन्दसिंह डाबर	उपयंत्री	मनेरा गंधवानी	गंधवानी	13	अवलदामान
76	14	श्री प्रदीप सोनी	उपयंत्री	मनेरा गंधवानी	गंधवानी	14	पानवा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
77	15	श्री एच. पी. जाटव	सहायक प्रबंधक	एम.पी.आर.डी. कुक्षी	9425951016	गंधवानी	15 अजन्ताड
78	16	श्री महेश वास्केल	उपयंत्री	मनेरा गंधवानी	9981849877	गंधवानी	16 काबरवा
79	1	श्री मयंक तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यात्रिकी सेवा क्र. 1, कुक्षी	9826075227	कुक्षी	सेक्टर क्रमांक 01
80	2	श्री अनुज गुसा	अनुविभागीय अधिकारी	मान जोबट परियोजना, कुक्षी	9826148974	कुक्षी	सेक्टर क्रमांक 02
81	3	श्री जी. आर. साक्ष	सहायक यंत्री	एन.व्ही.डी.ए. क्रमांक 16, कुक्षी		कुक्षी	सेक्टर क्रमांक 03
82	4	श्री एस. एस. वार्किया	सहायक यंत्री	एन.व्ही.डी.ए. क्रमांक 16, कुक्षी	9893797792	कुक्षी	सेक्टर क्रमांक 04
83	5	श्री राधाकृष्ण महेश्वरी	पुनर्वास अधिकारी	सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी	9630663435	कुक्षी	सेक्टर क्रमांक 05
84	6	श्री आर. डी. सनोरिया	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	एन.व्ही.डी.ए. क्रमांक 16, कुक्षी	9993142682	कुक्षी	सेक्टर क्रमांक 06
85	7	श्री दिलीप देशपांडे	सहायक यंत्री	एन.व्ही.डी.ए., कुक्षी	9993740945	कुक्षी	सेक्टर क्रमांक 07
86	8	श्री राजेन्द्र गुसा	अनुविभागीय अधिकारी	एन.व्ही.डी.ए. मान जोबट परि., कुक्षी	9993445832	कुक्षी	सेक्टर क्रमांक 08
87	9	श्री पी. के. चौहान	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग, बाग	9981809461	कुक्षी	सेक्टर क्रमांक 09
88	10	श्री बी. आर. उड़ेके	सहायक यंत्री	लोक त्वा. यांत्रिकी गुणवत्ता, कुक्षी	9669632856	कुक्षी	सेक्टर क्रमांक 10
89	1	श्री पी. के. शर्मा	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग, मनावर	9425367774	मनावर	1
90	2	श्री प्रवीण कुमार खरत	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग, मनावर	9425938974	मनावर	2
91	3	श्री दधिची रेवडिया	कार्यपालन यंत्री	एमपीईबी, मनावर	8989983843	मनावर	3
92	4	श्री एस. के. मिठास	सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी	एनवीडीए, मनावर	9425431395	मनावर	4
93	5	श्री के. एस. चौहान	अनुविभागीय अधिकारी	कुषि विभाग, मनावर	8085908811	मनावर	5
94	6	श्री एस. के. पंवार	सहायक यंत्री	मी.एच.ई. विभाग, मनावर	8989983849	मनावर	6
95	7	श्री गंगाराम बडोले	सहायक यंत्री	मी.एच.ई., मनावर		मनावर	7
96	8	श्री सुनील कुमार परसार	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यात्रिकी सेवा, मनावर	9993678127	मनावर	8
97	9	श्री अनिल कुमार मिश्रा	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग, मनावर	9425477876	मनावर	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
98	10	श्री एस. सी. ओझा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	एन.वी.डी.ए., मनावर	942510298	मनावर	10
99	11	श्री अजय ऋषि	अनुबंधभागीय अधिकारी	एन.वी.डी.ए. 30, मनावर	9425311280	मनावर	11
100	12	श्री बसंत कुमार खण्डवाय	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि विभाग, मनावर	9424024475	मनावर	12
101	13	श्री ब्रजकिशोर राठी	अनुबंधभागीय अधिकारी	एन.वी.डी.ए. 30, मनावर	9424006248	मनावर	13
102	14	श्री मधुकर तोमर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	एन.वी.डी.ए., मनावर	9826786087	मनावर	14
103	15	श्री एम. एस. बामनिया	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय, मनावर	9406668190	मनावर	15
104	1	श्री भंवर	अनुबंधभागीय अधिकारी	जल संसाधन, धार	नालछा	सेक्टर क्र. 1	
105	2	श्री श्रीवास्तव	अनुबंधभागीय अधिकारी	ग्रा.यां.सेवा उपखण्ड, नालछा	नालछा	सेक्टर क्र. 2	
106	3	श्री बी. एल. शाक्तवंशी	प्रबंधक	जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, पीथमपुर	नालछा	सेक्टर क्र. 3	
107	4	श्री एन. एल. महाजन	महाप्रबंधक	जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, पीथमपुर	नालछा	सेक्टर क्र. 4	
108	5	श्री संजय तिवारी	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परि., नालछा	नालछा	सेक्टर क्र. 5	
109	6	श्री गुसा	श्रम पदाधिकारी	श्रम विभाग, पीथमपुर	नालछा	सेक्टर क्र. 6	
110	7	श्री एस. आर. त्यागी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कृषि विभाग, नालछा	नालछा	सेक्टर क्र. 7	
111	8	श्री एम. कें. जायसवाल	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत, नालछा	नालछा	सेक्टर क्र. 8	
112	9	श्री डी. एन. गुजराती	विकासखण्ड स्कौत समन्वयक	जनपद शिक्षा केन्द्र, नालछा	नालछा	सेक्टर क्र. 9	
113	10	श्री सीताराम मेहडा	उद्यान अधीक्षक	शासकीय नरसी, माण्डव	नालछा	सेक्टर क्र. 10	
114	11	डॉ. के. सी. जैन	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय, नालछा	नालछा	सेक्टर क्र. 11	
115	12	श्री फी. एस. ओहरिया	कृषि विकास अधिकारी	कृषि विभाग, नालछा	नालछा	सेक्टर क्र. 12	
116	13	श्री संतोष कुमार यादव	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	विकासखण्ड शिक्षा, नालछा	नालछा	सेक्टर क्र. 13	
117	14	श्री विजय मोरे	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय, माण्डव	नालछा	सेक्टर क्र. 14	
118	15	डॉ. द्वौषा गुप्ता	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय, बाईं	नालछा	सेक्टर क्र. 15	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
119	1	श्री डॉ. दामोदर गोहलोत	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सालय, निसरपुर	9752047484	निसरपुर	1 कोणदा
120	2	श्री एच. पी. जाटव	सहायक प्रबंधक	प्रथानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	9425951016	निसरपुर	2 देशवाल्या
121	3	श्री एस. के. वर्मा	अनुबिभागीय अधिकारी	एन.व्ही.डी. क्र. 16 कुक्षी	9826648974	निसरपुर	3 सुसारी
122	4	श्री मयाराम सुराने	उपयन्त्री	आर.ई.एस. कुक्षी	9977757323	निसरपुर	4 चिखलदा
123	5	श्री ए. के. चौधरी	महाप्रबंधक	प्रथानमंत्री सड़क योजना, कुक्षी	9826277790	निसरपुर	5 लिंगवा
124	6	श्री पी.एन. शर्मा	कार्यपालन यंत्री	मान जोबट परियोजना, कुक्षी	9425952690	निसरपुर	6 पिपल्या
125	7	श्री पल्लवी परमार	परियोजना अधिकारी	एकी. बाल विकास परि., निसरपुर	9977050332	निसरपुर	7 निक्कोल
126	8	श्री बी. परमार	अनुबिभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग, कुक्षी	9424581219	निसरपुर	8 लोहारी
127	9	श्री आर. एस. बंसोद	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत, कुक्षी	9770083636	निसरपुर	9 डुकाणी
128	10	श्री जी.एस. भालसे	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कृषि विभाग, कुक्षी	9425945230	निसरपुर	10 धुलसर
129	11	श्री एस. आर. जैसवार	उपयन्त्री	एन.व्ही.डी.ए. 16, कुक्षी	9755374527	निसरपुर	11 निसरपुर
130	1	श्री एस.एल. शर्मा	अनुबिभागीय अधिकारी	माही परियोजना, लावरिया	9826433164	सरदारपुर	1 राजोद
131	2	श्री सुरेश महिवाल	अनुबिभागीय अधिकारी	वनपरिक्षेत्र वन विभाग, सरदारपुर	9424792250	सरदारपुर	2 नंदलई
132	3	श्री सुरसिंह डामोर	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन विभाग, सरदारपुर	9424792251	सरदारपुर	3 सारोटी
133	4	श्री जी. एस. सोलंकी	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा, सरदारपुर	8085661788	सरदारपुर	4 बरमण्डल
134	5	श्री जितेन्द्र मार्वी	कार्यपालन यंत्री	लो.स्वा.यां. (गुण. नियंत्रण), सरदारपुर	9424008706	सरदारपुर	5 खुटपला
135	6	श्री एम. के. नवरे	मण्डी सचिव	कृषि उपज मण्डी, राजगढ़	9424987077	सरदारपुर	6 लाबिरिया
136	7	श्री मंगलसिंह डोडवे	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	उद्यानिकी विभाग फुलगांवडी	9893515375	सरदारपुर	7 जौलाना
137	8	श्री आर. के. जैन	सहायक प्राथ्यपक	शास. महा., सरदारपुर/राजगढ़	9424044001	सरदारपुर	8 देवदला
138	9	श्री एल.एम. निगवाल	सहायक प्राथ्यपक	शास. महा., सरदारपुर/राजगढ़	9424075952	सरदारपुर	9 चोटियाबालोद
139	10	श्री राजेश परमार	उपयन्त्री	जनपद पंचायत, सरदारपुर	975445580	सरदारपुर	10 दसई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
140	11	श्री संजय जैन	उपर्युक्ती	जनपद पंचायत, सरदारपुर	9425943648	सरदारपुर	11 लोडगंब
141	12	श्री बलराम कांजी चौहान	उपर्युक्ती	तो.नि. विभाग उप खण्ड, सरदारपुर	9755697126	सरदारपुर	12 बोला
142	13	श्री विजय शर्मा	मुख्य नगर पंचायत अधिकारी	नगर पंचायत, राजगढ़	9425086870	सरदारपुर	13 भानगढ़
143	14	श्री आई. एम. डाबर	सहायक प्राथ्यापक	शास.महा., सरदारपुर/राजगढ़	9424062054	सरदारपुर	14 सोनगढ़
144	15	श्री एल. एस. आलावा	सहायक प्राथ्यापक	शास.महा., सरदारपुर/राजगढ़	9424043118	सरदारपुर	15 खाकरियाज़िरी
145	16	श्री एन. के. खेर	अनुविभागीय अधिकारी	तो.नि. विभाग उप खण्ड, सरदारपुर	8989499665	सरदारपुर	16 करनावद
146	17	श्री एल.एस. डोडिया	मुख्य नगर पंचायत अधिकारी	नगर पंचायत, सरदारपुर	9407416909	सरदारपुर	17 चालनीमाता
147	18	श्री बी.आर. युके	सहायक यंत्री	तो.स्वा.यां.गुण. नियंत्रक, सरदारपुर	9425165556	सरदारपुर	18 तिरला
148	19	श्री ए. के. भट्टानगर	सहायक यंत्री	तो.स्वा.यां.गुण. नियंत्रक, सरदारपुर	9425959655	सरदारपुर	19 गुमानपुरा
149	20	श्री जगदीश गुप्ता	उपर्युक्ती	तो.स्वा.यां.गुण. नियंत्रक, सरदारपुर	9407164870	सरदारपुर	20 रिमोद
150	21	श्री स्वरूप माधवाचार्य	सहकारिता निरीक्षक	आदिम जाति सेवा.सह.समि., सरदारपुर	9425335033	सरदारपुर	21 बिमोड
151	22	श्री एल.एन. राठौर	उपर्युक्ती	लोक निर्माण विभाग, सरदारपुर	9424598280	सरदारपुर	22 झुलेट
152	23	श्री एस. दुगदेव	उपर्युक्ती	लोक निर्माण विभाग, सरदारपुर	9425419558	सरदारपुर	23 बडेवेली
153	24	श्री विनोद महाजन	उपर्युक्ती	लोक निर्माण विभाग, सरदारपुर	9425089248	सरदारपुर	24 भोपाल
154	25	श्री आर. एस. अहिरवार	उपर्युक्ती	लोक निर्माण विभाग, सरदारपुर	9893965060	सरदारपुर	25 बडोदिया
155	26	श्री ओ.पी. माहेश्वरी	उपर्युक्ती	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सरदारपुर	9725089271	सरदारपुर	26 चालनी
156	27	श्री एम.सी. जोशी	उपर्युक्ती	लो.स्वा.यां.गुण. नियंत्रण, सरदारपुर	9424096555	सरदारपुर	27 मोरांग
157	28	श्री एम. ए. मावे	उपर्युक्ती	लो.स्वा.यां.गुण. नियंत्रण, सरदारपुर	9981332656	सरदारपुर	28 अमझेरा
158	29	श्री डी. के. जैन	उपर्युक्ती	लो.स्वा.यां.गुण. नियंत्रण, सरदारपुर	9425102602	सरदारपुर	29 राजपुरा
159	1	श्री एम. चमनीया	अनुविभागीय अधिकारी	संभा.परि.क्रिया.इ.लो.नि.वि., धार	9406884018	तिरला	1 धामन्दा
160	2	श्री शिवचरणसिंह	भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि विभाग, धार	94254-79548	तिरला	2 चिकिल्या
161	3	श्री पी. के. उपाध्याय	अनुविभागीय अधिकारी	पी.एच.ई., धार	94250-59390	तिरला	3 चित्तुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
162	4	श्री एस. एल. टट्टवाडे	अनुचितभागीय अधिकारी	संभापरिक्रिया, ई.लो.नि.वि., धार	98265-55927	तिरता	4 तिरता
163	5	श्री पी.सी. सोनी	सहायक संचालक	सहा. आयुक्त आ.वि.वि., धार	9893077255	तिरता	5 मोहनपुर
164	6	श्री अरविंद खेडे	प्रशासनिक अधिकारी	मुचिकि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धार	9926527654	तिरता	6 पाड़ल्या
165	7	श्री माईकल बवेश्या	सहायक यंत्री	सहा. आयुक्त आ.वि.वि., धार	9407404085	तिरता	7 सलकनपुर
166	8	श्री विनोद बघेल	सहा. मिट्टी परिक्षण अधिकारी	कृषि विभाग, धार	9424052628	तिरता	8 अंबापुरा
167	9	डॉ. नरेन्द्र पवेया	जिला मलेरिया अधिकारी	जिला मलेरिया विभाग, धार	8085369999	तिरता	9 बालदीपुरा
168	10	श्री डी. एस. सोलंकी	उप परियोजना संचालक	(आत्मा) कृषि विभाग, धार	9424821598	तिरता	10 बोरी
169	11	श्री ओ. पी. एस. तोमर	अनुचितभागीय कृषि अधिकारी	कृषि विभाग, धार	9977028761	तिरता	11 सतियुरा
170	12	श्री डी. एस. मोर्य	सहायक संचालक	कृषि विभाग, धार	8085630093	तिरता	12 उकाला
171	13	श्री राजेश्वरसिंह डामोर	पशु चिकित्सा विभारा अधिकारी	पशु चिकित्सालय, तिरता	9009336676	तिरता	13 जुतापानी
172	14	श्री एस. के. सिरोटिया	महाप्रबंधक	म.प्र.ग्रा. सड़क वि.क्र. 1, 3 प्राथि., धार	9425408108	तिरता	14 आमता
173	1	श्री के. के. पाण्डारा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कृषि विभाग, उमरबन	83058688284	उमरबन	1 बड़िया
174	2	श्री दरगाइवाला	अनुचितभागीय अधिकारी	ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग, धरमपुरी	9425087737	उमरबन	2 भमलावद
175	3	श्री महेश मोर्य	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास विभाग, उमरबन	9827068813	उमरबन	3 उमरबनकला
176	4	श्री पी. एल. नागर	डिप्टी रेजर	बन विभाग, उमरबन	8959238379	उमरबन	4 बोहारला
177	5	श्री सचनान	मरत्य निरीक्षक	मरत्य विभाग, उमरबन	9993698034	उमरबन	5 चौकी
178	6	श्री मोर्यदे	उपर्यंत्री	ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग, धरमपुरी	9827039182	उमरबन	6 लवाणी
179	7	श्री अद्भुत अंसरी	उपर्यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	7869285512	उमरबन	7 कल्हादड़
180	8	श्री चंदेल	उद्यान निरीक्षक	उद्यानिको विभाग, धरमपुरी	9754758478	उमरबन	8 कालीबाबड़ी
181	9	श्री औमसारी	सहा. पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सा विभाग, उमरबन	9754283017	उमरबन	9 प्रतापपुरदाम्भा
182	10	श्री अनुराग वर्मा	सहा. खाद्य, आपूर्ति अधिकारी	खाद्य विभाग, उमरबन	9826720585	उमरबन	10 दाभड
183	11	श्री इदरसिंह बुंदेल	मरु निर्देशक	आंगनबाड़ी कार्य. प्रशि. केन्द्र, धार		उमरबन	11 खेरवाजागीर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
184	12	श्री के. एस. तडवाल	सहायक यंत्री	एम.पी.ई.बी. मनावर	8989983848	उमरबन	12 सुलिलयडी
185	13	श्री सत्यभान सिंह भद्रेरिया	सहा. भूमि संक्षण अधिकारी	एन.व्ही.डी.ए., मनावर	9826359451	उमरबन	13 कुवाड
186	14	श्री नंदुसिंह डावर	उद्यान विकास अधिकारी	उद्यानिकी विभाग, मनावर		उमरबन	
187	15	श्री जी. डी. माहेश्वरी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर विभाग, धार		उमरबन	15 इर्झिवा
188	16	श्री गिरीश जैन	कार्यपालन यंत्री	म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, धार		उमरबन	16 मिर्जापुर
189	17	श्री आर. एस. डावर	प्रबंधक	प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र		उमरबन	17 बजटट्टुर्द
190	18	श्री डॉ. एस. सिसोदिया	परियोजना प्रशासक	एकीकृत आदि. विकास परि., धार		उमरबन	18 गमाधामा
191	19	डॉ. वी. सी. पुरंदरे	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सालय, सागौर		उमरबन	19 हुन्हेराखुर्जा
192	20	श्री वी. सी. जैन	सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर विभाग, धार		उमरबन	20 बायखेड़ा
193	21	श्री आर. के. जोशी	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रा.या. सेवा, धार		उमरबन	21 डेडांब
194	22	श्री केलाश चंद्र सिंगणे	सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर विभाग, पिथमपुर		उमरबन	22 देवलरा
195	23	श्री रत्नसिंह पटेल	उद्यान विकास अधिकारी	उद्यानिकी विभाग, निसरपुर		उमरबन	23 कोठडा
196	1	श्री के. सी. अग्निहोत्री	जिला आबकारी अधिकारी	आबकारी विभाग जिला-धार		थार	1 बिजुर
197	2	श्री के. सी. नवले	कार्यपालन यंत्री	वि.या. लाईट मर्सी. नत., धार		थार	2 बांडीतुक
198	3	श्री आर. के. जैन	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग, धार		थार	3 बागड
199	4	श्री के. केकरे	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन क्र. 1, धार		थार	4 उटावद
200	5	श्री अनिल वर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग, धार	9425334859	थार	5 नवासा
201	6	श्री ओ. पी. गुप्ता	जिला पंजीयिक	सहकारिता विभाग, धार		थार	6 सादलपुर
202	7	श्री आर. पी. कनेरिया	उप संचालक	कृषि विभाग, धार		थार	7 डेहरीसराय
203	8	श्री प्रदीप व्यास	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रा. सड़क वि.प्रा., धार		थार	8 तेबड
204	9	श्री जे. के. नागर	श्री जे. के. नागर	म.प्र.ग्रा.वि. सड़क वि.प्रा.धिकरण, धार		थार	9 गुणवद
205	10	श्री बालकृष्ण मोरे	जिला पंजीयिक	पंजीयिक कार्यालय जिला धार		थार	10 गमपुर
206	11	श्री आर. एस. पंवार	कार्यपालन यंत्री	सेवा संभाग, धार		थार	11 कलसाडाखुर्जा
207	12	श्री मर्नीष ईंटे	उप संचालक	पशु चिकित्सा विभाग, धार		थार	12 जिलोदा

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला रायसेन मध्यप्रदेश
क्रमांक 54-स्था.निर्वा.-15 रायसेन, दिनांक 8 जनवरी 2015

त्रि-स्तरीय निर्वाचन 2014-15 हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी का प्रस्ताव

जिले का अधिकारी का नाम नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ दिया जाना प्रस्तावित हैं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 श्री ए. पी. सिंह, 9479647523	सहा. वनसंरक्षक	वन विभाग	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	
2 श्री सुधीर पटेल, 9074325707	वनक्षेत्रपाल	वन विभाग	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	
3 श्री आर. एस. सोलंकी, 9993293788	जिला प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति निगम, रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	
4 श्री विश्वनाथ सिंह बुदेला	जिला कोच	खेल एवं युवक कल्याण रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	
5 श्री विकास श्रीवास्तव 9893057931	सहायक प्रबंधक	मत्स्य हलाली रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	
6 श्री एम. एम. गुप्ता 9826130947	जिला प्रबंधक	वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	
7 श्री ओ. पी. मालवीय 9827245879	एस. डी. ओ.	कृषि विभाग, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	
8 श्री आर. सी. मालवीय 9827782008	वरि. व्याख्याता	जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	
9 श्री ए. के. शर्मा 9039729100	प्रोजेक्ट इंजी.	पी.आई.यू., रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	
10 श्री एम. के. नंदनवार 9827657024	अधीक्षक	आईटीआई रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	
11 श्री हेमन्त रैयकवार 9424790713	अ.वि.अ.	वन मण्डल, ओ. गंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	
12 श्री आर. डी. बेले 94070141810	प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	श्री एच. सी. जैन 9425143902	उपयंत्री	म. प्र. ग्रा. रा. नि. प्राधि. परि. क्र. ई-2, रायसेन.	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
14	श्री जे. के. खरे	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
15	श्री केदारनाथ कोरी 9425637683	सहा. यंत्री	लो.स्वा.यां.वि., रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
16	श्री मनोज यादव 8989799308	जी. एम.	पीएमजीएसवाय-2, रायसेन	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
17	श्री प्रदीप चक्रवर्ती	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
18	श्री केशव सिंह परिहार 9584359194	क्रीड़ा अधिकारी	शा.क.महा.वि., रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
19	श्री मनोहरलाल सूत्रकार 9977643575	सहा. यंत्री	आर.ई.एस., रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
20	श्री संजय प्रताप सिंह	जिला कार्यक्रम अधिकारी.	महिला एवं बाल विकास रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
21	श्री भवानी प्रसाद कुशवाह 9993602854	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.	कृषि विभाग	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
22	डॉ. मनीष श्रीवास्तव 7566686754	प.चि.स.श.	प.चि.स.श. चिकित्सालय, रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
23	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव 9425372292	सहा. प्र.	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्र.क्र.-2 रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
24	श्री बुद्धसागर	बी.आर.सी.	बी.आर.सी., सॉची	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
25	सुश्री वाणी साहू	जिला खेलाधिकारी	जिला खेलाधिकारी, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
26	श्री अरूण पढोले 9425678489	ए.पी.ओ.	जिला पंचायत, रायसेन	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
27	श्री एम. पी. तिवारी 8462972116	उप संचालक	कृषि एवं किसान क., रायसेन	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
28	श्री काशीराम मेहर 9534070428	एस.ए.डी.ओ.	एस.ए.डी.ओ., सॉची	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	श्री आर. बी. सिंह, 9981049395	वि. खण्ड शिक्षा अधिकारी.	वि.खण्ड शिक्षा अधिकारी, गैरतगंज.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
30	श्रीमती ज्योति टोप्पे 9424482555	सहा. संचालक	मत्स्योद्योग, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
31	श्री प्रभात खरे 9826991934	प्रबंधक	खादी एवं ग्रामोद्योग, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
32	श्री पी. के. यादव 9425437703	उपयंत्री	हाउसिंग बोर्ड, रायसेन	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
33	श्री पी. के. गुप्ता 9425304401	सहा. यंत्री	पी.एम.जी.एस.व्हाय, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
34	श्री व्ही. के. जैन 9755460091	एस.डी.ओ.	आरईएस, गैरतगंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
35	डॉ. ए. के. जायसवाल 9424433555	पशु.चि.सहा.श.	पशु.चि.सहा.श.प.चि., गैरतगंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
36	श्री एन. पी. ठाकुर 9826499572	क्षे.सं.	क्षे.सं. आदिम जाति, रायसेन	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
37	श्री महेन्द्र सक्सेना 8962184250	जिला महिला सशक्तिकरण अधि.	महिला बाल विकास, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
38	श्री सुशील बाठोर 9425909724	ए.पी.ओ., मनरेगा	जनपद पंचायत, सॉची	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
39	श्री वी. के. सिंह 9425167709	उपायुक्त सहकारिता	उपायुक्त सहकारिता, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
40	श्री एस.एस. प्रजापति 9425656255	उप वन मंडलाधिकारी	वन मंडल	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
41	श्री राठौर 9926511075	एस.डी.ओ.	पी.डब्ल्यू.डी., गैरतगंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
42	श्री दिलीप सिंह पुरिया	वन क्षेत्रपाल	वनमण्डल	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
43	श्री राजीव श्रीवास्तव	वन क्षेत्रपाल	सॉची	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
44	श्री गौरीशंकर रैकवार 9826797872	सहा. संचालक, कृषि विकास अधिकारी.	कृषि विभाग, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45	श्री राजेश शर्मा 9425666144	एसडीओ	पी.एम.जी.एस.बॉय.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
46	श्री अनूप मिश्रा 9424720310	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायसेन	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
47	डॉ. जी. के. जैन 9425437495	जिला आयूष अधिकारी।	जिला आयूष अधिकारी, रायसेन।	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
48	श्री अरविन्द सिंह तोमर 9893453993	प्रबंधक	एग्रो, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
49	श्री मोहन श्रीवास्तव 9826283671	सहायक प्रबंधक जनरल मैनेजर	जिला इंडस्ट्राई सेंटर, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
50	श्री पी. एन. रैकवार 9425939158	महा. प्रबंधक	जि. व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायसेन।	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
51	श्रीमति प्रभिला वाईकर 9425688379	उप संचालक	सामाजिक न्याय, रायसेन	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
52	श्री के. एल. उडिया 9993085127	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी, रायसेन।	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
53	श्री डॉ. के. जैन 8349662530	कार्यपालन यंत्री	पी.एच.ई., रायसेन	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
54	श्री श्यामाधर पाटिल 9691834669	ए.पी.ओ.	जनपद पंचायत, बेगमगंज	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
55	श्री आर. के. रैयकवार	रेन्ज आफिसर	रेन्ज आफिसर, गढ़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
56	श्री जे. पी. तिवारी	एसएडीओ	कृषि विभाग, बेगमगंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
57	श्री जवाहर सिंह चन्द्रवंशी 9425493441	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी	भूमि संरक्षण सर्वे कार्यालय, गैरतगंज	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
58	डॉ. एन. के. तिवारी 8305725705	पशु चिकि. सहा. श.	पशु चिकि., बेगमगंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
59	श्री ए.आर.डोके 9893083765	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत, बेगमगंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60	श्री पी. एस. टाट्सकर	उपयंत्री	सेमरी जलाशय, बेगमगंज	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
61	श्री एल.एस. कुर्मा	ए.डी.ओ.	कृषि विभाग, गैरतगंज	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
62	श्री वीरेन्द्र कुमार मो. 8103133737	रेन्ज आफिसर	जैथारी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
63	श्री अवनीश चतुर्वेदी 8989816323	जिला संयोजक	अ.जा.क.वि., रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
64	श्री एम. एन. बोहरे	रेन्ज आफिसर	बन विभाग, सिलवानी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
65	श्री ए. के. उपाध्याय जी 9926502259	परियोजना अधिकारी	आत्मा परियोजना, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
66	श्री एच.यू. खान 8224000470	कार्यपालन अधिकारी	अन्त्यावसायी, रायसेन	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
67	श्री रशीद खां	ए.डी.ओ.	कृषि विभाग, सिलवानी	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
68	श्री आर. के. नेमा 7879558127	पीआईयू	पीआईयू, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
69	श्री सुमन पिल्लई मो. 8349192240	जिला कार्यक्रम अधिकारी.	महिला एवं बाल विकास, रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
70	श्री मशाराम मोर्य	उद्यान अधीक्षक	सिलवानी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
71	श्री जी. आर. छलोत्रे	एसडीओ	समरी जलाशय	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
72	श्री आर. के. वैश	अनु.वि. अधिकारी	बन विभाग, सिलवानी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
73	श्री शैलेश जैन मो. 9425438450	सहा. प्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.नि. प्राधि.परि.क्रि. ई-1, रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
74	श्री रजनीश कुमार शुक्ला	रेन्ज अधिकारी	सिलवानी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
75	श्री के. के. रायकवार 9406872170	महाप्रबंधक	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
76	श्री गजराज सिंह अहिरवार	रेन्ज आफिसर	सिलवानी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
77	श्री एल. एस. मेहरा मो.	ए.डी.ओ.	कृषि विभाग, सिलवानी	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
78	श्री बब्बर 9406902169	सहा. यंत्री	एमपीईबी निर्माण शाखा, रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
79	श्री ए. आर. ढोके मो. 9893083765	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत, बेगमगंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
80	श्री पी. एल. ठाकुर	बी.ई.ओ.	सिलवानी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
81	श्री मनोहरलाल कोरी मो. 9981274249	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय, सिलवानी.	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
82	श्री ए. के. रावत मो. नं. 9425433888	ए.ए.डी.ओ.	कृषि विभाग, बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
83	श्री ए. के. रावत मो. 9425433888	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कृषि विभाग, बाड़ी	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
84	श्री एस. पी. त्रिपाठी 9300658467	जिला शिक्षा अधिकारी.	जिला शिक्षा अधिकारी, रायसेन.	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
85	श्री के. के. धाकड 9893399473	वरिष्ठ कृ.वि.अधि.	वरिष्ठ कृ. वि. अधि., उदयपुरा.	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
86	श्री के. के. रैना 9893407133	जिला पंजीयक	कार्या. जिला पंजीयक, रायसेन	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
87	श्री मयंक शुक्ला 8871438192	प्रोजेक्ट इंजी.	पी.आई.यू., उदयपुरा	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
88	श्री हर्ष सक्सेना 9993220242	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन, रायसेन	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
89	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	सहायक संचालक	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प- संख्यक कल्याण विभाग, रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
90	श्री रंजीत कुमार 7828418522	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी.	कार्या. भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी, बाड़ी.	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
91	श्री रमेश कुमार गुर्जर 9425149948	अधीक्षक	आईटीआई, देवरी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
92	श्री रामकुमार 9424790652	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग, रायसेन	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
93	श्री रामचरण अहिरबार 9424491417	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	नगरपालिका, बेरेली	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
94	श्री रत्नसिंह कटारा 9993144622	सहायक संचालक	उद्यानिकी, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
95	श्री सुखवीर सिंह छारी मो. 882794131	सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी.	कृषि विभाग	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
96	श्री देवनाथ दहाट 8878728457	सहा. यंत्री	पीएचई, बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
97	श्री जी. एस. ठाकुर 989667055	परियोजना अधिकारी	एकीकृत महिला एवं बाल विकास, बेरेली.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
98	श्री जी. पी. सिलावट 9425680100	अविअ	जल संसाधन, देवरी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
99	श्री आर.एन. पटेल 9893019946	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी	कार्या. भूमि संरक्षण, बाड़ी	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
100	श्री अशोक कुमार तिवारी 9893889691	अनु.वि.अधि. मनरेगा	जनपद पंचायत, उदयपुरा	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
101	डॉ. डी. एस. तोमर 9893291439	उप संचा.	पशु चिकित्सा सेवाएं, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
102	डॉ. राजेश दीवान 8959718779	पशु वि.सहा.श.	पशु चिकि., उदयपुरा	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
103	श्री डी. के. श्रीवास्तव 9589276302	उपयंत्री	पी.डब्ल्यू.डी., देवरी	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
104	श्री आर. पी. मालवीय 8189450806	उपयंत्री	जनपद पंचायत, उदयपुरा	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
105	श्री एस. आर. चौधरी 9977468806	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन परिक्षेत्र अधिकारी, बाड़ी	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
106	श्री एन.पी.एस. सिसोदिया 9425386740	कार्यपालन यंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री, बारना, बाड़ी.	प्रथम	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
107	श्री एल.एन. पचवारिया 958943301	अनुविभागीय अधिकारी	कृषि बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
108	श्री के. के. खरे 9424790714	अधीक्षक	सिधोरी अभ्याहरण, बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
109	श्री हरीश विजयवर्गीय 9770485714	सहायक संचालक	कृषि एवं प्रशिक्षण केन्द्र, ओ. गंज.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
110	श्री भवानीशंकर वर्मा 9929380731	अनुविभागीय अधिकारी.	आर.ई.एस., बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
111	श्री पंकज परिहार 9425343502	अनुविभागीय अधिकारी.	लोक निर्माण विभाग, बरेली.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
112	श्री रवि श्रीवास्तव 9424018596	सहायक प्रबंधक	मत्स्य महासंघ, बारना बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
113	श्री राकेश दीक्षित 9993422041	सहायक यंत्री	बारना बांयी नहर संभाग, बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
114	श्री डी. एल. डेहार 8878728657	अनुविभागीय अधिकारी.	पी.एच.ई. बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
115	श्री डी. के. शर्मा 9893331992	सहायक यंत्री	बारना बांयी नहर संभाग, बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
116	श्री देवाशीश पाल 9425415755	सहायक यंत्री	बारना बांयी नहर संभाग, बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
117	श्री व्ही. के. श्रीवास्तव 8959698982	सहायक यंत्री	बारना बांयी नहर संभाग, बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
118	श्री आर.एस. विश्वकर्मा 9424790714	उप वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल, बाड़ी		द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
119	श्री अजीज बेग 9425300782	सहायक यंत्री	बारना बांयी नहर संभाग, बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
120	श्री अजाज सिन्हा मेशराम 8959698982	सहायक यंत्री	बारना बांयी नहर संभाग, बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
121	श्री गंगाधर शर्मा 9165650025	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	नगर पंचायत बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
122	डॉ. एम.एल. मांझी 9993972979	पशु चिकित्सक	पशु चिकि. बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
123	डॉ. सतीष चौरे 9425679568	सहा. संचालक	पशु चिकित्सा सेवाएं, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
124	डॉ. डी.एन. नरवारिया 9479832522	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय, बाड़ी	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
125	डॉ. नवीन पालीवाल 9893802886	पशु.चि.रा.श.	पशु चिकित्सालय, औ. गंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
126	डॉ. के. के. डामौर 9754412557	पशु चिकित्सक	पशु.चिकि. बरेली	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
127	श्री एल. पी. पाण्डेय 9779595827	वरिष्ठ उदयानिकी विकास अधिकारी.	उदयानिकी, बाड़ी	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
128	श्री यू. पी. शर्मा 98270011268	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी.	कार्या. भूमि संरक्षण, बाड़ी	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
129	श्री नरेन्द्र सिंह 9425652216	जिला आपूर्ति अधिकारी.	जिला आपूर्ति कार्यालय, रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
130	सुश्री राखी रघुवंशी 8989648661	जिला प्रबंधक	प्रबंधक, रायसेन, मार्कफेड	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
131	डॉ. एस. डी. खरे 9406904736	जिला परि. अधि.	डी.पी.आई.पी., रायसेन	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
132	श्री विजय मनवानी 9407255231	एस.डी.ओ.	ई.एण्ड.एम. पी. डब्ल्यू.डी., रायसेन.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
133	श्री अनिल कुमार 9303079830	प्रोजेक्ट इंजी.	एनएचएआई 86	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
134	श्री के. एस. खिंची 9406516778	श्रम पदाधिकारी	कार्यालय श्रम पदाधिकारी, मण्डीदीप.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
135	श्री विनय तिवारी 9827244579	महाप्रबंधक	जि.व्या.एवं उ.के., मंडीदीप	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
136	श्री सी.एस. दुबे 9424790714	अधीक्षक	रातापानी अभ्यारण, औ. गंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
137	श्री पुरुषोत्तम दरियानी 9484362631	सहायक प्रबंधक	जिला औद्योगिक सेन्टर, मंडीदीप	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
138	श्री के. एन. सक्सेना 9424790711	उप वनमण्डलाधिकारी	कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, औ. गंज.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
139	श्रीमति प्रतिभा साहू 8109218901	महिला बाल विकास अधिकारी.	कार्या. महिला बाल विकास अधिकारी औबेदुल्लागंज.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
140	श्री एच. ए. जाफरी 9993034803	श्रम निरीक्षक	कार्या. श्रम निरीक्षक मण्डीदीप	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
141	डॉ. एस.एस. पाण्डे 9826350562	व्ही.इ.ओ.	कार्या. व्ही.इ.ओ. औबेदुल्लागंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
142	श्री आर. पी. साहू 9977303242	प्रभारी उद्यान अधीक्षक	कार्या. प्रभारी उद्यान अधीक्षक औबेदुल्लागंज.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
143	श्रीमति प्रतिभा सिंह 9993795775	अ.वि.अ.	कार्या. डब्ल्यू.आर.डी. चिकलोद	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
144	श्री के. एन. सक्सेना 9424797011	उप वन मण्डलाधिकारी	कार्या. उप वन मण्डलाधिकारी औ. गंज.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
145	श्री राजश्री कटोरे 9425361122	अ.वि.अ.	डब्ल्यू.आर.डी. ओ., गंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
146	श्री बी. एल. अहिरवार 9893098183	अनुविभागीय अधिकारी.	कार्या. एस.डी.ओ. एन. एच.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
147	डॉ. विनीत तिवारी 9893956096	प.चिकि.सहा. शा.	प. चिकित्सालय, दीवानगंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
148	श्री महेश वर्मा 9753229722	अ.वि.अ.	वन मण्डल औ. गंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
149	श्री एच.सी. लाडिया 9425186587	अ.वि.अ.	पी.एच.ई. औ. गंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
150	भगवानदास अगरैया 9589216751	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.	कार्या. वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वितीय मण्डीदीप.		सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
151	श्री सुनील कुमार तिवारी 9926584239	जिला प्रबंधक	कार्या. व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मण्डीदीप.	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
152	श्री योगेन्द्र सिंह 9826597889	क्रीडाधिकारी	शा.महा.वि. मण्डीदीप	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
153	डॉ. पंकज भार्गव 9826110122	प. चिकि. सहा. शा.	कृ. गर्भा. केन्द्र औ. गंज	द्वितीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
154	श्री अशोक कुमार 9424790561	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग औ. गंज	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये
155	श्री बी. के. मालवीय 9981225610	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.	कार्या. कृषि विकास अधिकारी औ. गंज.	तृतीय	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिये

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला नीमच, म. प्र.

नीमच, दिनांक 21 दिसम्बर 2014

क्र. 2573-स्था.निर्वा.-पंचा.निर्वा.-2014.—त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 हेतु विकास खण्ड क्षेत्र नीमच/जावद/मनासा हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया गया है:—

क्र. (1)	सेक्टर ऑफिसर का नाम पदनाम व विभाग का नाम (2)	मोबाइल नम्बर (3)	सेक्टर में सम्मिलित पंचायतें (4)	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्र (5)	थाना (6)
1	श्री के. एस. सोलंकी, सहायक पंजीयक, सहकारिता, नीमच.	9425092229	बामनबर्डी, वारू, कुदरसी	12,5,1,2,3,4,32, 10,11,13,14,29, 30,31,35,33,34	बघाना
2	श्री यू. सी. भाटी, सहायक संचालक, मत्स्य पालन विभाग, नीमच.	9826175044	झुंवलावदा, घसुण्डीबामनी	20,19,21,22,6,7	नीमच केंट
3	श्री एन. एस. भिडे, कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.यांत्रिकी, नीमच.	9425973940	धनेरियाकलां, बिसलवासकलां, घसुण्डीबामनी	43,18,8,9,15,16, 17,36,37,38,39, 40,41,42	बघाना
4	श्री एन. एल. बोराना, एसडीओ, पीएचई, नीमच.	9406673031	भरभड़िया, कनावटी	23,24,25,26,27 28,45,46,47,48, 49	नीमच केंट
5	श्री राजकुमार ठाकुर, सहा. आयुक्त, वाणिज्यकर वृत्त, नीमच.	8989981072	बरुखेड़ा, मालखेड़ा, नेवड़, सेमली, चन्द्रावत	52,50,51,75,76, 77,78,55,56,53, 54,57,58,59	नीमच सिटी
6	श्री विष्णु कुमार सोनी, उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नीमच.	-	बोरखेड़ीकलां, वडोली, गिरदौड़ा जावी	79,80,81,82,65, 66,67,68,91,60, 61,62,63,64,69, 70	नीमच सिटी
7	श्री जे. एस. भिडे, खनि निरीक्षक, नीमच.	-	रेवली देवली, पिण्लोन, झालबी	87,74,117,86, 115,116,83,84, 85,71,72,73	नीमच सिटी
8	श्री कानंदसिंह भदौरिया, जिला आयुर्वेद अधिकारी, नीमच.	9926836811	बोरखेड़ी, पानड़ी, भादवामाता, जवासा, लसुण्डीतंवर	112,113,114,118, 119,120,136,137, 184,185,186	नीमच सिटी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	श्री डी. के. उपाध्याय, ग्रंथपाल, शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच.	-	आमजीखेड़ा, सावन	146,147,144,145, 138,139,140,141, 142,143	नीमच सिटी
10	श्री जतीनसिंह चूण्डावत, सहायक यंत्री, पीआईयू नीमच.	9827518900	छायन, सेमली, मेवाड़, आमलीखेड़ा, सिरखेड़ा	165,169,170,172, 171,148,149,150 151,163,164	नीमच सिटी
11	श्री महेश शर्मा, अनु. अधि., ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नीमच.	9424047270	मुण्डला, मांगरोल, बोरादियाकलां, विशन्या	168,166,167,261, 260,159,160,161, 162,222,223	नीमच सिटी
12	श्री शरद शर्मा, निरीक्षक, नापतौल विभाग, नीमच.	9826030640	जमुनियाखुर्द, गिरदौड़ा, बिसलवास, सोनिगरा	94,93,95,96,92, 88,89,90,121,122	नीमच सिटी
13	श्री अनिल कुमार ओझा, प्रबंधक, जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नीमच.	9424885935	कानाखेड़ा, अड़मालिया	97,98,99,110, 108,109,111	नीमच सिटी
14	श्री मधुसूदन शाक्य, शल्यज्ञ, पशु चिकि. सेवाएं, जीरन.	9770008563	पिपल्याबाग, चम्पी, भटखेड़ा, जमुनियाकलां	128,129,105,103 104,102,123,124, 125,126,127	नीमच सिटी
15	श्री अनुराग जायसवाल, प्राचार्य, डाईट, नीमच.	-	जयसिंहपुरा, धनेरियाकलां	244,245,246,247, 44	बघाना
16	श्री आर. आर. सिकरवार, परि. समन्वयक, जिला शिक्षा कार्यालय, नीमच	9977209886	धामनिया, सोनियाना, लखमी, महुड़िया	241,242,204,205, 206,257,258,259, 243,202,203	बघाना
17	श्री किशोरकुमार रांगड़ेकर, वरि. व्यव्याता, डाईट, नीमच.	9425417052	भाटखेड़ा, केलुखेड़ा, बामनिया	100,101,106,107, 248,249,252,250, 251	नीमच सिटी
18	श्री पी. एस. बघेल, प्राध्यापक, शा. महात्मा गांधी महा. जावद.	9328674996	भंवरासा, कोटड़ी, इश्तमुरार, पालसोड़ा	253,254,255,256, 234,235,236,130, 131,132,133,134, 135	जीरन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	श्री सी. एल. केवड़ा, उप संचालक, कृषि, नीमच.	-	चल्कू, अरन्या, बोराना, तालखेड़ा	152,153,154,155, 158,157,159,239, 237,238,240	जीरन
20	श्री राजीव द्विवेदी, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, नीमच.	9407168206	कुचडौद, फोफलिया, हरवार	221,216,217,218, 219,220,215,211, 212,213,214,207, 208,209,210	जीरन
21	श्री राजकुमार सिंह, जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण विभाग, नीमच.	9329468805	दलपतपुरा, अमावली, जागीर, घसुंडी जागीर	198,199,187,188, 189,178,181,179, 180,183,182	जीरन
22	श्री जगदीश चन्द्र आर्य, सहायक प्राध्यापक, शा. स्नातकोत्तर महावि., नीमच.	-	बमोरा, बमोरी, कराड़िया, महाराज, राबड़िया	229,230,231,232, 233,224,225,226, 227,200,201	जीरन
23	श्री लोहारसिंह चिचान, अधीक्षक, भू-अभिलेख, नीमच.	9424492053	चीताखेड़ा, हरनावदा	190,191,192,193, 194,195,196,177, 173,174,197,175, 176	जीरन

विकासखण्ड—जावद

24	श्री विक्रम शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, जावद.	9893069736	धारड़ी बड़ी, थड़ौद	1,2,3,4,5,6,7,25, 23,24	सिंगोली
25	श्री आर. सी. चौबे, अनु. अधिकारी, वन विभाग, जावद.	9424794336	घनगांव, शहनातलाई, पलासिया	22,21,18,19, 20,26,27, 23,29,39	सिंगोली
26	श्री शंकरलाल यादव, अनुविभागीय अधिकारी, वन, जावद.	9424794836	बड़ी, फुसरिया, पटियाल	8,9,10,11,12,15, 16,17,13,14	सिंगोली
27	श्री जे. पी. मालवीय, उपयंत्री, नगर परिषद्, जावद.	-	कछाला, ताल, किशनपुरा	30,31,32,55,54, 59,58,60,57,56	सिंगोली
28	श्री ओंकारसिंह बर्मन, सहायक संचालक, कृषि विभाग, नीमच.	9589239039	झांतला, पलासिया, रेतपुरा, राजपुराझंवर	33,34,35,36,37, 38,40,41,42,43	सिंगोली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	श्री रमेश चौहान, सहा. प्राध्यापक, शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच.	-	राजपुरझंवर, कदवासा, माहुपुरापुरण, डाबड़ाकलां	44,45,46,47,49, 48,50,51,52,53	सिंगोली
30	श्री के. के. टांक, सहायक यंत्री, नगरपालिका, नीमच.	-	कोज्या, परलाई, आमा	61,62,63,68,69, 66,67,64,65,70	सिंगोली
31	श्री प्रो. आर. सी. मेघताल, सहा. प्राध्यापक, महाविद्यालय, जावद.	9977209886	उम्मेलपुरा, अथवाबुजुर्ग, उमर, बाणदा	80,71,72,73,79, 78,76,77,75,74	रत्नगढ़ /सिंगोली
32	श्री आर. एस. सिसौदिया, भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि संरक्षण, नीमच.	9424065355	बोरदिया, कांकरिया, तलाई	88,87,84,85,81, 82,83,86	रत्नगढ़
33	श्री अजय चौहान, सहायक संचालक, उद्यानिकी, नीमच.	-	डोराई, बधावा, लुहारियाजाट	90,91,89,93,92, 120,112,113,114	रत्नगढ़
34	श्री आर. पी. नागदा, क्षेत्रीय अधिकारी, जिला सहकारी, बैंक, नीमच.	9425440960	जाव, बधावा	94,95,96,97,98, 99,115,116,117, 118,119	रत्नगढ़
35	श्री सलामुद्दीन अंसारी, सहायक संचालक, हाथकरघा, जिला पंचायत, नीमच.	9926056529	श्रीपुरा, खातीखेड़ा, दौलतपुरा	102,103,107,104, 106,105,111,108, 109,100,101,110	रत्नगढ़
36	श्री विजय सलाम, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, नीमच.	9425973559	देहपरा, आलौरी, लुहारिया, चुण्डावत	129,130,125,126, 127,128,131,132, 133,134	रत्नगढ़
37	श्री पी. के. शर्मा, शाखा प्रबंधक, एमपी एग्रो, नीमच.	9993991610	कुण्डला, नीलियां, मोरबन, माण्डा, जनकपुर	141,142,137,138, 139,140,156,146, 147,148,149	रत्नगढ़/जावद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	श्री राजेन्द्रसिंह बघेल, सचिव, कृषि उपज मण्डी, नीमच.	9425326474	सुठोली, भगवानपुरा, दड़ौली, जनकपुर, मोरबन	121,122,123,124, 135,136,143,144, 145,150,157	रत्नगढ़/जावद
39	श्री एम. एस. क छावा, कार्यपालन अधिकारी, अंत्यावसायी, नीमच.	9827504665	मोरबन, मैलाखेड़ा, रूपपुरा	158,154,155,151, 152,153,163,162, 161,160,159	जावद
40	प्रो. आर. सी. जैन, सहायक प्राध्यापक, शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच.	-	नावलनई, मेलानखेड़ा	165,166,167,169, 164,168,170,171	जावद
41	श्री दिनेश कुमार शर्मा, प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, नीमच.	9424049287	तारापुर, उम्मेलपुरा, हनुमंतिया	176,172,173,175, 174,199,200,201	जावद
42	श्री गिरीराज शर्मा, सहा. प्राध्या. शा. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, नीमच.	-	तुम्बा, सरोदा	177,178,179,180, 181,182,183,185 188,186,187	जावद
43	श्री मनोहरलाल पाटीदार, सहायक यंत्री, लोक स्वा. यांत्रिकी, मनासा.	9425441944	गुर्जरखेड़ी, सांखला, ढाणी, सरवांनिया, मसानी	189,190,191,192, 193,184,194,195, 196,197,198	जावद
44	श्री व्ही. के. ओझा, सहा. प्राध्या. शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच.	-	खौर, दामोदरपुरा	206,207,200,209, 210,211,212,213, 214,215	जावद
45	डॉ.यतीन मेहता, सहायक संचालक कृषि विभाग, नीमच.	7397487710	केशरपुरा, दामोदरपुरा, सुवाखेड़ा	204, 205, 202,203, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222	जावद
46	श्री आर.के.कुमारवत, उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नीमच.	-	बरखेड़ा, कामलिया, पालराखेड़ा, मोड़ी, उपरेटा	223,224,226,225, 227,228,232,233, 234,235,230,229	जावद
47	श्री एन.के.करवाड़िया, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग, नीमच.	-	बसेड़ीभाटी, मड़ावदा, लासूर	236,237,248,249, 250,2581,252, 253	जावद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48	श्री एस.डी.मांदले, निरीक्षक, श्रम विभाग, नीमच.	9827016580	बांगरेड, अरनिया, मामादेव, बराडा	254,255,256,257, 258,259, 260, 261, 262	जावद
49	श्री व्ही.के.अम्ब, प्राध्यापक शा.स्नात. महा. नीमच.	-	समेल, केलूखेड़ा, उपरेडा, आंकली	239,240,241, 265 231,263,264,243 244	जावद
50	श्री मनजीतसिंह, सलूजा, सहा. प्राध्यापक, श्री सीताराम जाजू कन्या महाबि. नीमच.	9425992580	समेल, बसेडी, भाटी, धामनिया, आमलीभाट	242,238,245,246 247,266,267,268 269	जावद

विकासखण्ड—मनासा

51	श्री बी.एस.उप्पल, रेंज ऑफिसर, वन विभाग, मनासा.	9424794865	पलासिया, खेड़ली, कंजाड़ी	22,23,10,11,13 12,14,15,16,17 18,19,20,21	मनासा
52	श्री बी. पी. शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी वन, मनासा.	9424794864	चौकड़ी, बख्तुनी, धाकड़खेड़ी	4,1,2,3,5,7,9,6,8	मनासा
53	श्री संजीव सक्सेना, सहा.जिला आब. अधि., नीमच.	9826268120	रावतपुरा, पडदा	26,45,47,46,24,25, 38,39,40,41,42 43,44	मनासा
54	श्री जी.एस.रावत, सह.जिला आब. अधि. नीमच.	9424063137	बालागंज, जामुनेयारावजी, मालखेड़ा, भाटखेड़ी	71,72,29,30,31,27, 28,73,74,75,76, 77,78,79,80	मनासा
55	श्री यू.सी. भाटी, सहा.संचालक, मत्स्य पालन विभाग, नीमच.	9826175044	पिपल्यारावजी, बर्डिया, जागी, उचेड़	62,83,84,85,86,87, 88,81,32,33	मनासा
56	श्री एन.एस. भिडे कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा. यांत्रिकी, नीमच.	9425973940	अलहेड़, बाबडा सांडिया, चुकनी, ढाकनी अचलपुरा	89,90,91,92,93,69, 70,96,97,94,95 103,104,105,106	मनासा
57	श्री एन.एल.बोराना, एसडीओ, पीएचई नीमच.	9406673031	कचौली, बर्डिया, डांगड़ी, हांसपुरा	127,128,126, 123,124,125,48, 49,142,143,120 121, 122	मनासा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	श्रीमती रेलम बघेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, नीमच.	-	जालीनेर, अरनियामाली, लोडकिया, नलखेड़ा, अचलपुरा पंचायत का एक म. के.	100,98,99,107, 102,101,111, 112, 113,108 109, 110	मनासा
59	श्री जतीनसिंह चुण्डावत सहायक यंत्री, पीआईयू नीमच.	9827518900	देवरीखवासा, आकली, रायसिंहपुरा, खजूरी	291, 292,293, 286,285,287, 288,289,290 294,295,296	मनासा
60	श्री आर.एन.कवा, उपयंत्री, नगरपालिका, नीमच.	-	आंतरीबुजुर्ग, चपलाना, मोखमपुरा	279,280,281,282, 283,284,276,277, 278,274,275,137, 138, 139	मनासा
61	डॉ.गोपाल चौहान, जिला पशु प्रजनन कार्य, अधि, पशु चिकि.सेवाएं, नीमच.	9424833586	बड़कुआ, शेवपुर, महागढ़, दुरगापुरा, बनी	247,248,249, 131,132,114, 115,116,117 118,119,133 134,135,136	मनासा
62	श्री जे.एस.भिड़े, खनि निरीक्षक, नीमच.	-	पिपल्याहाडी, जूना, मालाहेड़ा, ढंडेरी	50,51,52,53,37,36, 35,34,55,54	मनासा
63	श्री आर.आर.सिकरवार, परि.समन्वयक जिला शिक्षा, कार्यालय, नीमच.	9977209883	मोकड़ी, सांकरियाखेड़ी, सुवासराबुजुर्ग, टामोटी, आमद, खडावदा	58,59,63,64,159, 160,161,162, 156,157,158, 163, 164,165,60,61,62	कुकड़ेश्वर
64	डॉ.अलकेश जायसवाल, सहा.प्राध्यापक शा.स्ना. महाविद्यालय, नीमच.	-	ढोडर ब्लॉक दो म.केन्द्र फूलपुरा, दांता, हतुनिया, बरलाई	65,66,67,68,173 174,172,175, 176,106,166, 167,235,234, 236,169	कुकड़ेश्वर
65	श्री आर.के.पेंसिया, सहायक प्राध्यापक, सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय, नीमच.	-	फोफलिया, हनुमंतया, पावटी, लसुड़ियाआंतरी तलाऊ	56,57,150,149, 152,154,155, 153,256,257, 258,259,260,261	कुकड़ेश्वर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66	श्री संजय कोहद, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, विभाग, नीमच.	9893345844	सेमली ईश्तमुरार, बरखेड़ा मोया, पावटी लसुड़िया आंतरी नलवा, भदवा, फोफलिया	146, 147, 148, 151, 129, 130, 140, 141, 250, 251, 254, 255, 144, 145	कुकड़ेश्वर
67	श्री ओ. पी. परमार, उपयंत्री नगर परिषद्, रामपुरा.	966766444	भदवा पंचा. के दो मतदान केन्द्र पिपलयाखुर्द खानखेड़ी, कुण्डला कदवासा, देघल	252, 253, 267, 265, 266, 268, 269, 270, 273, 271, 272, 262, 263, 264	कुकड़ेश्वर
68	श्री सी. एल. केवड़ा, उप संचालक, कृषि, नीमच.	-	राजपुरा अरनियाढाणी चचोर, भमेसर, पालड़ा	223, 224, 226, 225, 237, 2387, 239, 240, 241, 242	रामपुरा
69	श्री सी. एल. हकवाड़िया, उपयंत्री नगरपालिका, नीमच.	-	जन्नौद, भगौरी, चिकली ब्लॉक	177, 178, 179, 180, 184, 185, 170, 171, 181, 182, 183	रामपुरा
70	श्री लोहारसिंह चिचाम, अधीक्षक, भू-अभिलेख, नीमच.	9424492053	चन्द्रपुरा, बारवाड़िया, बेसला, अमरपुरा ब्लॉक, भदाना	207, 208, 209, 210, 211, 212, 206, 205, 200, 201, 202, 203, 204	रामपुरा
71	श्री सी. पी. पंवार, प्राध्यापक, शा. स्नातकोत्तर सहा. नीमच.	9424833246	डायली, चेनपुरिया ब्लॉक बुज, खिमला ब्लॉक	213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222	रामपुरा
72	श्री भरतसिंह मईड़ा, सहायक प्राध्यापक, शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुरा.	8109299184	खेतपालिया, मजीरिया दुधलाई, लसुड़िया, ईश्तमुरार, देवरान	193, 192, 191, 190, 189, 194, 195, 186, 188, 243, 244, 245, 246	रामपुरा
73	श्री राजकुमार सिंह, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच.	9329468805	लसुड़िया, ईश्तमुरार क. थनेड़ ग्राम सोनडी, चचोर बनडा	187, 196, 197, 193, 199, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233	रामपुरा

(1)	(2)	(3)	(4)
रिजर्व			
1	श्री पी. बी. कैथवास, सहायक यंत्री, नगरपालिका, नीमच.		नीमच
2	श्री एन. आर. मंदारा, उपयंत्री, नगरपालिका, नीमच.		विकासखण्ड, नीमच हेतु रिजर्व
3	श्री करण सिसौदिया, उपयंत्री जल संसाधन विभाग, नीमच.		विकासखण्ड, जावद हेतु रिजर्व
4	श्रीमती माधवी जाधव, प्राचार्य, पोलिटेक्निक कॉलेज, जावद.		विकासखण्ड, जावद हेतु रिजर्व
5	श्री एस.के.सोनी, उपयंत्री लो. स्वा. यां. नीमच.		विकासखण्ड जावद हेतु रिजर्व
6	श्री धर्मेन्द्र फिरोजिया, सहायक प्राध्यापक, शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुरा.	9424853727	विकासखण्ड, मनासा हेतु रिजर्व
7	श्री बलराम सोनी, सहायक प्राध्यापक, शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुरा.	9425974941	विकासखण्ड मनासा हेतु रिजर्व

उपरोक्तानुसार तीनों विकासखण्ड हेतु नियुक्त सेक्टर ऑफिसर्स को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

परिशिष्ट-1

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2015 अंतर्गत सीहोर जिले के विकासखण्ड, सीहोर के प्रथम चरण के निर्वाचन दिनांक 13-1-2015 को सम्पन्न कराने के लिये नियुक्त सेक्टर ऑफिसर को विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में।

सेक्टर क्रमांक (1)	शासकीय सेवक का नाम व पद (2)	सेक्टर अंतर्गत सम्मिलित मतदान केन्द्रों का क्रमांक (3)
1 गवा	श्री अनिल श्रीवास्तव, संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, सीहोर।	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 18, कुल 9
2 नगरदा	श्री आर. आर. वर्मा, सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सीहोर।	5, 6, 7, 16, 17, 26, 27, कुल 7
3 चरनाल	श्री राजीव श्रीवास्तव, सहायक संचालक, मत्स्य, सीहोर।	12, 13, 14, 15, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, कुल 15
4 बैरागढ़ खुमान	श्री पी. के. सक्सेना, सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उप खण्ड, सीहोर।	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, कुल 13
5 बरखेड़ा हसन	श्री अवनीश चतुर्वेदी, परि. संचालक कार्यालय परियोजना संचालक आत्मा, सीहोर।	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 33, कुल 12
6 नाईहेड़ी	श्री अशोक शुक्ला, उप पंजीयक, सहकारी समिति, सीहोर।	32, 34, 35, 36, 83, 84, 85, 86, 89, कुल 9
7 अहमदपुर	श्री विजय खातेकर, नाप-तौल निरीक्षक, सीहोर।	67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 87, 92, कुल 13
8 खाईखेड़ा	श्री अनिल बरसैया, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीहोर।	63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 80, 90, 91, कुल 11
9 बरखेड़ी दोराहा	श्री एम. सी. अहिरवार, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सीहोर।	88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 122, 123, कुल 11
10 दोराहा	श्री पवन अहिरवार, जिला पंजीयक, सीहोर।	105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 137, 138, 139, 140, कुल 12

(1)	(2)	(3)
11 झरखेड़ी	श्री प्रेम सोलंकी, महाप्रबंधक, सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक मर्यादित, सीहोर	101, 102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 125, 127, कुल 15
12 श्यामपुर	श्री विजेन्द्र बिजोलिया, जिला रोजगार अधिकारी, सीहोर	141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 134, 135, 136, कुल 14
13 मुख्यारनगर	श्री एल. पी. धनोलिया प्रम पदाधिकारी, सीहोर	58, 59, 152, 153, 154, 155, 156, 174, कुल 8
14 सिराडी	श्री अमिताभ मिश्रा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर	130, 131, 132, 133, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, कुल 12
15 खजूरिया कलां	श्री अशोक पराड़कर, जिला शिक्षा केन्द्र, सीहोर	176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 193, कुल 13
16 खण्डवा	श्री मोहन रैकवार, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सीहोर	157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, कुल 10
17 छापरी दौराहा	श्री पुरुषोत्तम जोशी, सहायक संचालक, उद्यान, सीहोर	119, 126, 128, 129, 285, कुल 5
18 धनखेड़ी (चांदवड़)	श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, सहायक प्रबंधक, म. प्र. ग्रामीण सङ्कर प्राधिकरण परियोजना, सीहोर	187, 188, 189, 190, 191, 195, 27, 271, 275, 276, 280, 281, कुल 12
19 जानपुरबावड़िया	श्री रामेश्वर पटेल, सहायक संचालक कृषि सीहोर	194, 196, 197, 198, 262, 263, 264, 265, 272, 273, 274, कुल 11
20 बिजोरी	श्री आर. के. रावत, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, सीहोर	246, 251, 252, 259, 260, 261, 247, 248, 249, 250, 266, 267, 268, 269, कुल 14
21 मुंगावली	श्री एस. के. निरापुरे, परियोजना यंत्री, कार्यालय संभाग परियोजना ईकाई-23, लोक निर्माण विभाग, सीहोर	254, 255, 256, 257, 258, 277, 278, 279, 282, 283, 284, 295, कुल 12
22 महोड़िया	श्री धर्मेन्द्र शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, सीहोर	244, 245, 204, 207, 208, 240, 241, 242, 243, 231, 232, 253, कुल 12

(1)	(2)	(3)
23 संग्रामपुर	श्री एच. पी. सिंह, खनिज अधिकारी, सीहोर	199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, कुल 12
24 नापलाखेड़ी	श्री परवेज सुल्तान, प्रबंधक, जि. व्या. एवं उद्योग केन्द्र, सीहोर	219, 226, 227, 229, 230, 233, 237, 238, 239, 235, 236, 326, 327 कुल 13
25 सोंडा	श्री पी. एन. पाण्डे, सहायक यंत्री, नगरपालिका, सीहोर	214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 234, 228 कुल 13
26 मोगराराम	श्री ए. यू. खान, सहायक प्रबन्धक, म. प्र. सड़क प्राधिकरण, परि. सीहोर	321, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 कुल 15
27 लसूडिया परिहार	श्री भविष्य खोब्रागडे, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभियान, सीहोर	304, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 286, 287, 288, 289, 290, 301 कुल 14
28 थूनाकलाँ	श्री एस. आर. प्रभाकर, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, सीहोर	291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303 कुल 11
29 बमूलिया	श्री के. एस. किरार, अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सीहोर	335, 336, 337, 340, 341, 342, 350, 351, 352, 353, 354, 338, 339 कुल 13
30 बरखेडी सीहोर	श्री एस. एस. पटेल, प्रभारी उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, सीहोर	315, 316, 317, 310, 311, 343, 344, 345, 346, 347 कुल 10
31 उलझावन	श्री एस. सी. मालवीय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अंतव्यवसायी सीहोर	348, 349, 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 कुल 11
32 बिलकिसगंज	श्री के. पी. त्रिपाठी, उप संचालक, पंचायत एवं निःशक्त कल्याण, सीहोर	390, 391, 392, 393, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, कुल 11
33 ढाबला	श्री संजय लक्ष्मेवार, जिला योजना अधिकारी	309, 355, 356, 361, 362, 363, 364, 373, 374, 357, 358, 359, 360 कुल 13
34 खारी	श्री जगदीश ठाकुर, सहायक संचालक कृषि सीहोर	383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 कुल 07
रिजर्व (1)	श्री डी. के. सक्सेना परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर	
रिजर्व (2)	श्री संतोष कुमार खलको प्रबंधक, म. प्र. वेयर हाउसिंग एवं ला. का. सीहोर.	

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्र. -स्था.निर्वा.-पंचा.-2014-108.—त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014 विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करने हेतु अधिकारियों की सूची :—

क्र.	जनपद पंचायत का नाम जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की जाना है	सेक्टर मुख्यालय	नियुक्त सेक्टर अधिकारी का नाम/पद व मोबाइल नम्बर	क्षेत्र का विवरण (आवंटित मतदान केन्द्र) जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की जाना है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जनपद पंचायत, गुना	01-सिरसी	श्री सी. एस. राठौर, उप वनमण्डलाधिकारी, गुना 9424794687	120-कलेछरी, 121-किलामपुर, 122-करनावटा, 123-नयागांव, 124-हनुमतखेड़ा, 125-सालोदा, 127-रेहपुरा, 128-सुआटोर, 129-सुआटोर, 132-रतनपुरा, 133-सिरसी, 134-सिरसी, 139-मुसरेडी, 140-बडेग, कुल 14.
2	जनपद पंचायत, गुना	02-मारकीमहू	श्री टी. डी. चौबे, श्रम पदाधिकारी, गुना 9425341973	135-नागदा, 136-देवगढ़, 137-बरखेड़ा, 144-मारकीमहू, 145-मारकीमहू, 146-मारकीमहू, 147-मारकीमहू, 301-करीली, 302-करीली, कुल 9.
3	जनपद पंचायत, गुना	03-सांडखेड़ा	श्री अनुरोध श्रीवास्तव महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ईकाई-2, गुना	126-बरवटु, 130-सांडखेड़ा, 131-सांडखेड़ा, 138 मझोला, 148-सनवाडा, 149-सनवाडा, 150-बांसखेडी (चंदेरा), 151-दस्तोलीवेर, कुल 8.
4	जनपद पंचायत, गुना	04- जालमपुर	श्री एम. बी. सरसैया, उपवन मण्डलाधिकारी, गुना 9424794653	141-करकेकीमहू, 142-करकेकीमहू, 143-तारापुर, 161-उदयपुरी, 162-गडरिया कोडर, 163-नकटपुर, 164-जालमपुर, 165-धानवाड़ी, 166-इकोदिया, 167-पिपरिया, 168-बरोदिया, कुल 11.
5	जनपद पंचायत, गुना	05-खेरीखता	डॉ. बी. के. पटेल, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, गुना 9691964748	108-चकदेवपुर, 109-देवपुर, 110-बाबोदा, 113-अमरोही, 118-बन्नाखेड़ा, 152-खेरीखता, 153-खेरीखता, 154-विरोली, 155-शेरपुर, 156-महोदरा, 157-महोदरा, 158-राई, 159-बंधा, 160-बगोनिया, 303-माढई, कुल 15.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6 जनपद पंचायत, गुना	06-उमरी	श्री पुनीत खेरे, प्रभारी, कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, गुना 9425758572, 9425474412		93-नेगमा, 94-नेगमा, 95-आरी, 96-रानीगंज, 97-भावपुर, 101-उमरी, 102-उमरी, 103-उमरी, 104-उमरी, 105-उमरी, 281-कुडीभंगवार, कुल 11.
7 जनपद पंचायत, गुना	07-रतनपुरा	श्री अजय कुमार गुप्ता, सहा. प्रबंधक, म. प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, गुना 9406552235		111-भिडा, 112-चांदनभेंट, 114-हाथीकूंदन, 115-मकरावदा, 116-रतनपुरा, 117-भेरोघाटी, 119-हनुमतपुरा, 174-अगरा, 175-झिरोली, 176-सारतला, कुल 10.
8 जनपद पंचायत, गुना	08-म्याना	श्री विशाल आनन्द श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना, गुना 9893095804		196-म्याना, 197-म्याना, 198-म्याना, 199-म्याना, 200-म्याना, 201-म्याना, 202-म्याना, 203-म्याना, 204-म्याना, 205-म्याना, 206-खजूरी, 207-खजूरी, 208-शाहपुर, 209-पदमनखेड़ी, 210-रीछई, 211-नसीरा, 212-सेंधुआ, 220-लहरघाट, कुल 18.
9 जनपद पंचायत, गुना	09-टकनेरा	श्री ओ. पी. अम्ब्र, जिला पंजीयक, गुना 9425339725		181-गोमचीखेड़ा, 182-तिस्याई, 183-सिंगारपुर, 184-मोरखेड़ी, 185-बसार, 186-सिंहपुर, 187-कुंदौरा, 188-चीरखेड़ा, 189-दुर्गापुर, 190-टकनेरा, 191-टकनेरा, 192-टकनेरा, 193-टकनेरा, 194-टकनेरा, 195-गढला, कुल 15.
10 जनपद पंचायत, गुना	10-गाजीपुर	श्री वाय. एस. रघुवंशी, रेज ऑफिसर, वनमण्डल, गुना 9424794657		01-गाजीपुर, 02-बरखेड़ासफा, 05-पूनमखेड़ी, 177-झुंगासरा, 178-झुंगासरा, 179-झुंगासरा, 180-चकमाधौपुर, 216-जमरा, 217-जमरा, 218-सगोरिया, 219-सगोरिया, 221-खोंकर, 222-बांसखेड़ी, 223-लहरकोता, 224-लहरकोता, कुल 15.
11 जनपद पंचायत, गुना	11-भदौरा	श्री आर. बी. गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, नगरपालिका, गुना, 9752235583		03-मानपुर, 04-पडरिया, 169-भदौरा, 170-भदौरा, 171-भदौरा, 172-भदौरा, 173-भदौरा, 210-खुटियावद, 214-खुटियावद, 215-खुटियावद, 225-ग्वारखेड़ा, 229-पिपरोदाहारू, 240-कूंदोल, 241-कूंदोल, 242-दोषपुर, कुल 15.
12 जनपद पंचायत, गुना	12-मगराना	श्री पी.के.घोष, महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रामीण, सङ्क विकास प्राधिकरण, गुना 9425779602		226-गजनाई, 227-गजनाई, 237-उकावद, 238-उकावद, 239-बेरखेड़ी, 243-गोपालपुर, 244 श्यामपुर, 245-सुगेर, 246-मगराना, 247-मगराना, 248-इमझरा,,249-इमझरा, 250- पिपरोदा केशराज, 251-पिपरोदा केशराज, 252- बल्लापुर, कुल-15.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13 जनपद पंचायत, गुना	13-पिपरदाखुर्द	श्री संकल्प गोलिया, सहा.यंत्री, लो.नि.वि.भवन, परियोजना, क्रियान्वयन इंकाई, गुना 9009852101		278-बिलोनिया, 279-बिलोनिया, 280-बीलादावडी 282-सिलावटी, 283-सिलावटी, 284-पिपरोदाखुर्द, 285-पिपरोदाखुर्द, 286-पिपरोदाखुर्द, 287-पिपरोदाखुर्द, 288-पिपरोदाखुर्द, 289-पिपरोदाखुर्द, 290-पिपरोदाखुर्द, 293-सकतपुर, 294-सकतपुर, 295-सकतपुर, 296-चकसकतपुर, कुल-16.
14 जनपद पंचायत, गुना	14-हरिपुर	श्रीमती कामिनी देशपाण्डे, परियोजना अधिकारी, महिला, एवं बाल विकास, गुना 9993480025		81-हरिपुर, 82-हरिपुर, 83-हरिपुर, 84-हरिपुर, 85-पुरापोषर, 86-पुरापोषर, 87-विन्ध्याई, 88-गणेशपुरा, 98-सिंघाड़ी, 100-बरोदियाखुर्द, कुल-10.
15 जनपद पंचायत, गुना	15-विनायकखेड़ी	श्री बी.आर.शाक्य, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, गुना 9826506218		44-गढ़लागिर्द, 45-देवरीडांग, 70-विनायकखेड़ी, 71-विनायकखेड़ी, 72-विनायकखेड़ी, 73-मुहालपुर, 74-मुहालपुर, 75-सोजना, कुल-08.
16 जनपद पंचायत, गुना	16-धमनार	श्री विजय पुरोहित, सहायक यंत्री, जिला शिक्षा केन्द्र, गुना 9826217810		106-पाटई, 107-पाटई, 228-रेंझाई, 230-तरावटा, 231-तरावटा, 232-धमनार, 233-धमनार, 234-धमनार, 235-धमनार, 236-दुनाई, 297-पुरैनी, 298-कंजा, 300-किशनगढ़, कुल 13.
17 जनपद पंचायत, गुना	17-पगारा	श्री ए. के. जैन, संभागीय परियोजना यंत्री, लो.नि.वि. (पी.आई.यू.), गुना 9826253103		255-बैंहटाघाट, 256-बैंहटाघाट, 257-कोठिया, 260-पगारा, 261-पगारा, 262-पगारा, 263-पगारा, 264-पीथमपुर, 269-मावन, 270-मावन, 271-मावन, 272-मावन, 273-टोरिया, 274-कींदर, 275-सरखंडी, कुल 15.
18 जनपद पंचायत, गुना	18-हिनोतिया	श्री पी. के. शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, गुना 9425361074		06-हिनोतिया, 07-हिनोतिया, 253-महूखान, 254-सेमरा, 258-रिछेरा, 259-चौरोलचक, 276-पिपरिया, 277-पिपरिया, 291-सिंगवासा, 292-सिंगवासा, 299-बरखेड़ाडेकनी, कुल 11.
19 जनपद पंचायत, गुना	19-सिरसीकला	श्री आर. बी. गोयल, महिला सशक्तीकरण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, गुना 9779773300		15-देवरीमार, 16-कोलुआमार, 17-भौरागिर्द, 18-सिरसीकला, 19-पिपरोदागिर्द, 20-परसौदा, 21-सिरसीखुर्द, 22-खिरियागिर्द, कुल 8.
20 जनपद पंचायत, गुना	20-बरखेड़ागिर्द	श्री टी. के. गर्ग, कार्यपालन यंत्री, विद्युत् सुरक्षा एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक, गुना 9826333964		08-माहोर, 09-माहोर, 10-माहोर, 11-माहोर, 12-मंगवार, 13-विजयपुरा, 14-इकोदिया, 23-बरखेड़ागिर्द, 24-बरखेड़ागिर्द, 25-बरखेड़ागिर्द, 26-बरखेड़ागिर्द, 265-करोद, 266-करोद, 267 करोद, 268-करोद, कुल 15.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21 जनपद पंचायत, गुना	21-खेजरा	श्री आई. बी. पटेल, उप-संचालक, उद्यान, गुना 9425406136		30-गेंहूखेड़ागिर्द, 31-बैंहटाजिर, 32-गोपालपुर टकटैया, 33-चांदौल, 34-खेजरा, 35-खेजरा, 36-खेजरा, 37-पीताखेड़ी, 38-पिपरोदाकला, 39-मोहरी, कुल 10.
22 जनपद पंचायत, गुना	22-बजरंगगढ़	श्री एच. एन. शर्मा, सहायक प्रबन्धक, म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ईकाई-2, गुना 9406579799		46-भिलेरा, 50-छीपोन, 51-छीपोनचक, 52-गेंडावर्ड, 53-सेमरी, 60-बजरंगगढ़, 61-बजरंगगढ़, 62-बजरंगगढ़, 63-बजरंगगढ़, 64-बजरंगगढ़, 65-बजरंगगढ़, 66-बजरंगगढ़, 67-हरिगढ़ (बजरंगगढ़), 68-नयागांव (बजरंगगढ़), 69-नयागांव (बजरंगगढ़), कुल-15.
23 जनपद पंचायत, गुना	23-सतनपुर	श्री अशोक कुमार रघुवंशी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, गुना 8989980699		27-सतनपुर, 28-सतनपुर, 29-कानोन, 40-दहरदू, 41-गीदखौह, 42-नोहर, 43-लोहपाल, 47-चुराई, 48-खूजा, 49-खूजा, 54-तिल्लीखेड़ा, 55-तिल्लीखेड़ा, 56-रसूलपुर, 57-सरखोह, कुल 14.
24 जनपद पंचायत, गुना	24-हिलगना	श्री दीपक बंसोड, कार्यपालन यंत्री, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल, गुना 9827076450		58-पांज, 59-सौठी, 76-हिलगना, 77-हिलगना, 78-गादेर, 79-महूगढ़ा, 80-बमौरी बुजुर्ग, 89-गढा, 90-गढा, 91-गढा, 92-नयागांव (गढा), 99-ढोलवाज, कुल-12.
25 जनपद पंचायत, गुना	-	श्री शहजाद अली सहायक परियोजना यंत्री, लो.नि.वि., पी.आई.यू., गुना 9826046716		रिजर्व
26 जनपद पंचायत, गुना	-	श्री अरूण देव, उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, गुना 7955163534		रिजर्व